



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>  
**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>  
**CONTACT:** 9971932488



# **PATRIOTIC IAS**

## **DAILY CURRENT AFFAIRS**

### **THE HINDU NEWSPAPER**

#### **04 OCTOBER 2025**

**YouTube link:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**Telegram Channel:** <https://t.me/patrioticIAS>

**To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below:**

<https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel:** <https://t.me/patrioticIAS>

**PCS Special: 04 October 2025**

- 1. Former Rajasthan Speaker, ex-MLA Girraj Tiwari passes away at 105**  
पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधायक गिरराज तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन

**Address :** 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur  
**Email Id :** info@patrioticias.in  
**Contact Number :** 9971932488  
**Website :** patrioticias.in



2. **Cough syrups not contaminated, says Centre; T.N. test detects adulteration**

कफ सिरप दूषित नहीं हैं, केंद्र ने कहा; तमिलनाडु की जांच में मिलावट का पता चला

3. **Mullally appointed first woman to lead the Church of England**

मुलली को इंग्लैंड चर्च की नेतृत्व करने वाली पहली महिला नियुक्त किया गया

## Former Rajasthan Speaker, ex-MLA Girraj Tiwari passes away at 105

PCS

**The Hindu Bureau**  
JAIPUR

Former Rajasthan Assembly Speaker Girraj Prasad Tiwari died in Bharatpur late on Thursday night at the age of 105 years. Tiwari was respected across the political spectrum for his knowledge of parliamentary traditions and his balanced and dignified approach to politics.

Tiwari was born at Bidyari village of Bayana subdivision in Bharatpur district in 1920.

He served as the Assembly Speaker from January 31, 1986, to March 11, 1990, and was twice elected as an MLA.

Tiwari also held the position of Deputy Speaker from March 29, 1985, to January 31, 1986. He began



Former Rajasthan Assembly Speaker Girraj Prasad Tiwari with Congress leader Ashok Gehlot. SPECIAL ARRANGEMENT

his career as a lawyer, following which he entered into politics to become the Panchayat Samiti Pradhan and the Zila Pramukh.

The departed leader's body was cremated at Bidyari on Friday in the presence of a battery of political leaders, including Chief

Minister Bhajan Lal Sharma and elderly socialist leader and former Bharatpur MP Pandit Ramkishan.

Condolences poured in from various social and political figures, several of whom highlighted the loss of an experienced personality. Veteran Congress

**He was respected for his knowledge of parliamentary traditions and his balanced, dignified approach to politics**

leader and former Chief Minister Ashok Gehlot said Tiwari, who lived a "splendid life" up to the age of 105 years, was an example of discipline and vivacity.

**Governor's condolences**  
Governor Haribhau Bagade and Assembly Speaker Vasudev Devnani also condoled Tiwari's death. Mr. Devnani lauded the departed leader's contribution in keeping the decorum of the House and upholding the parliamentary conventions.

### Former Rajasthan Speaker, ex-MLA Girraj Tiwari passes away at 105

पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधायक गिराज तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन

- Former Rajasthan Assembly Speaker Girraj Prasad Tiwari died in Bharatpur late on Thursday night at the age of 105 years. Tiwari was respected across the political spectrum for his knowledge of parliamentary traditions and his balanced and dignified approach to politics.  
पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष गिराज प्रसाद तिवारी का भरतपुर में गुरुवार रात देर से 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तिवारी को उनकी संसदीय परंपराओं की जानकारी और राजनीति के प्रति उनके संतुलित और गरिमामय दृष्टिकोण के लिए राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता था।
- Tiwari was born at Bidyari village of Bayana subdivision in Bharatpur district in 1920. तिवारी का जन्म 1920 में भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के बिदयारी गांव में हुआ था।
- He served as the Assembly Speaker from January 31, 1986, to March 11, 1990, and was twice elected as an MLA.



उन्होंने 31 जनवरी 1986 से 11 मार्च 1990 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और दो बार विधायक चुने गए।

- Tiwari also held the position of **Deputy Speaker** from **March 29, 1985, to January 31, 1986**. He began his career as a **lawyer**, following which he entered into politics to become the **Panchayat Samiti Pradhan** and the **Zila Pramukh**.

तिवारी ने 29 मार्च 1985 से 31 जनवरी 1986 तक उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के रूप में की, जिसके बाद वे राजनीति में आए और पंचायत समिति प्रधान तथा जिला प्रमुख बने।

- The departed leader's body was cremated at **Bidyari** on **Friday** in the presence of a battery of political leaders, including **Chief Minister Bhajan Lal Sharma** and elderly socialist leader and former **Bharatpur MP Pandit Ramkishan**.

स्वर्गीय नेता का अंतिम संस्कार शुक्रवार को बिदयारी में राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी में किया गया, जिनमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वरिष्ठ समाजवादी नेता तथा पूर्व भरतपुर सांसद पंडित रामकिशन शामिल थे।

- Condolences poured in from various social and political figures, several of whom highlighted the loss of an experienced personality. Veteran **Congress leader** and former **Chief Minister Ashok Gehlot** said Tiwari, who lived a "splendid life" up to the age of **105 years**, was an example of discipline and vivacity.

विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों से शोक संदेश प्राप्त हुए, जिनमें से कई ने एक अनुभवी व्यक्तित्व के नुकसान को रेखांकित किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तिवारी, जिन्होंने 105 वर्ष की आयु तक एक "शानदार जीवन" जिया, अनुशासन और जीवंतता का उदाहरण थे।

### Governor's condolences राज्यपाल की संवेदनाएं

- **Governor Haribhau Bagade** and **Assembly Speaker Vasudev Devnani** also condoled Tiwari's death. Mr. Devnani lauded the departed leader's contribution in keeping the decorum of the **House** and upholding the **parliamentary conventions**.

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री देवनानी ने सदन की गरिमा बनाए रखने और संसदीय परंपराओं को कायम रखने में दिवंगत नेता के योगदान की सराहना की।



# Cough syrups not contaminated, says Centre; T.N. test detects adulteration

Union Health Ministry says none of the cough syrup samples contained diethylene glycol or ethylene glycol that are known to cause serious kidney injury; Tamil Nadu says tests showed Coldrif batch had diethylene glycol, orders production halt

PCS

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI/CHENNAI

The Union Health Ministry said on Friday that tests had confirmed that cough syrups linked to the recent deaths of children in Madhya Pradesh and Rajasthan did not contain contaminants causing serious kidney injury.

However, the Tamil Nadu's Drugs Control Department issued an immediate stop production order to the manufacturer of the Coldrif brand of cough syrup after an analysis by the Government Drugs Testing Laboratory found a batch to be "not of standard quality" and "adulterated with diethylene glycol".

The nine deaths in Madhya Pradesh were attributed to Coldrif, while the two cases in Rajasthan were linked to the consumption of a dextromethorphan-based formulation.

Following the deaths in Madhya Pradesh, a joint team of representatives from the National Centre for Disease Control, the National Institute of Virology (NIV), the Central Drugs Standard Control Organisation, and other institutes



**Note of caution:** Children should be given cough syrup only under prescription, says the Health Ministry in its advisory. ISTOCK

visited the State. They collected samples of cough syrups and blood and other samples from patients.

"As per the test results, none of the samples contained diethylene glycol (DEG) or ethylene glycol (EG), contaminants that are known to cause serious kidney injury," the Ministry said.

#### One leptospirosis case

The Madhya Pradesh State Food and Drug Administration tested three samples and confirmed the absence of DEG and EG. Further, blood and cerebrospinal fluid samples have been tested by the NIV, Pune, for common pathogens. One case has been found positive for leptospirosis, said a release from the Health Ministry.

Samples of water and respiratory specimens were under further investigation by the NEERI, NIV Pune, and other laboratories, it added.

As regards the reports related to death of two children in Rajasthan, the Ministry clarified that the product in question did not contain propylene glycol, which can be a potential source of DEG and EG.

"Additionally, the product under reference is a dextromethorphan-based formulation, which is not recommended for paediatric use," said the note.

The Rajasthan Medical and Health Department has ruled out any connection between the deaths and the cough syrup given under the Chief Minister's

free medicine scheme.

"An inquiry report has confirmed that the [two] children were given cough syrup at home without medical advice," Ravi Prakash Sharma, Director (Public Health), said in Jaipur.

Mr. Sharma said the doctors at the government health facilities in Sikar and Bharatpur had not prescribed dextromethorphan drug in both incidents. "This generic cough syrup is not prescribed for children," he said.

However, Kayson Pharma, the firm based at Sarna Doongar village in Jaipur, which supplies drugs for the Chief Minister's free medicine scheme, has come under the State government's scanner. The Health Department has ordered a probe into the quality of all medicines manufactured by the firm.

India has faced such crises before. In 2020, 12 children died in Jammu after drinking a contaminated cough syrup. In 2022, 70 children died in the Gambia, allegedly due to Indian syrups laced with DEG.

#### Show-cause notice

The Tamil Nadu government has issued a show-

cause notice to the manufacturer.

S. Gurubharathi, Deputy Director of Drugs Control and Licensing Authority, Tamil Nadu, confirmed the finding. The Drugs Control Department said it had taken immediate regulatory action after receiving information on the deaths in Madhya Pradesh attributed to the drug containing paracetamol, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate syrup (Coldrif Syrup), Batch No. SR-13 (manufacturing date of May 2025 and expiry date of April 2027) manufactured by Sresan Pharmaceutical Manufacturer, Sunguvarchathiram, Kancheepuram district.

#### Advisory

The Union Health Ministry has issued an advisory to all States and Union Territories on rational use of cough syrups in children. Advocating for safe, limited and only-under-prescription use of cough syrups, it said that cough in children is usually a self-limiting condition. It cautioned against prescribing cough syrups to children below two years of age.

## Cough syrups not contaminated, says Centre; T.N. test detects adulteration

कफ सिरप दूषित नहीं हैं, केंद्र ने कहा; तमिलनाडु की जांच में मिलावट का पता चला

- The Union Health Ministry said on Friday that tests had confirmed that cough syrups linked to the recent deaths of children in Madhya Pradesh and Rajasthan did not contain contaminants causing serious kidney injury.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जांचों ने यह पुष्टि की है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में बच्चों की मौतों से जुड़े कफ सिरप में गंभीर गुर्दा क्षति करने वाले दूषक नहीं पाए गए।

- However, the Tamil Nadu's Drugs Control Department issued an immediate stop production order to the manufacturer of the Coldrif brand of cough syrup after an analysis by the Government Drugs Testing Laboratory found a batch to be "not of standard quality" and "adulterated with diethylene glycol".



हालांकि, तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड्रिफ ब्रांड के कफ सिरप के निर्माता को तत्काल उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया, क्योंकि सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने एक बैच को "मानक गुणवत्ता का नहीं" और "डाइएथिलीन ग्लाइकॉल से मिलावटी" पाया।

- The nine deaths in **Madhya Pradesh** were attributed to Coldrif, while the two cases in **Rajasthan** were linked to the consumption of a dextromethorphan-based formulation. मध्य प्रदेश में हुई नौ मौतें कोल्ड्रिफ से जुड़ी थीं, जबकि राजस्थान में दो मामले डेक्स्ट्रोमैथॉर्फान आधारित फार्मूलेशन के सेवन से जुड़े थे।
- Following the deaths in Madhya Pradesh, a joint team of representatives from the **National Centre for Disease Control**, the **National Institute of Virology (NIV)**, the **Central Drugs Standard Control Organisation**, and other institutes visited the State. They collected samples of cough syrups and blood and other samples from patients. मध्य प्रदेश में मौतों के बाद, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और अन्य संस्थानों की एक संयुक्त टीम ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने कफ सिरप, खून और अन्य नमूने रोगियों से एकत्र किए।
- "As per the test results, none of the samples contained **diethylene glycol (DEG)** or **ethylene glycol (EG)**, contaminants that are known to cause serious kidney injury," the Ministry said. "जांच परिणामों के अनुसार, किसी भी नमूने में **डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG)** या **एथिलीन ग्लाइकॉल (EG)** नहीं पाया गया, जो गंभीर गुर्दा क्षति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं," मंत्रालय ने कहा।

### One leptospirosis case

#### एक लेप्टोस्पाइरोसिस का मामला

- The **Madhya Pradesh State Food and Drug Administration** tested three samples and confirmed the absence of DEG and EG. Further, blood and cerebrospinal fluid samples have been tested by the **NIV, Pune**, for common pathogens. One case has been found positive for **leptospirosis**, said a release from the Health Ministry. Samples of water and respiratory specimens were under further investigation by the **NEERI, NIV Pune**, and other laboratories, it added. मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तीन नमूनों की जांच की और **DEG और EG** की अनुपस्थिति की पुष्टि की। आगे, एनआईवी, पुणे ने खून और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के नमूनों की जांच सामान्य रोगाणुओं के लिए की। एक मामला लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए सकारात्मक पाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया। पानी और श्वसन नमूनों की आगे जांच नीरी, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा की जा रही है, इसमें जोड़ा गया।
- As regards the reports related to death of two children in Rajasthan, the Ministry claimed that the product in question did not contain **propylene glycol**, which can be a potential source of DEG and EG. राजस्थान में दो बच्चों की मौत से संबंधित रिपोर्टों के संदर्भ में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित उत्पाद में प्रोपलीन ग्लाइकॉल नहीं था, जो **DEG और EG** का संभावित स्रोत हो सकता है।
- "Additionally, the product under reference is a **dextromethorphan-based formulation**, which is not recommended for **paediatric use**," said the note. "इसके अलावा, संबंधित उत्पाद **डेक्स्ट्रोमैथॉर्फान आधारित फॉर्मूलेशन** है, जिसे बाल चिकित्सा उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है," नोट में कहा गया।
- The **Rajasthan Medical and Health Department** has ruled out any connection between the deaths and the cough syrup given under the **Chief Minister's free medicine scheme**. राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मौतों और मुख्यमंत्री की निःशुल्क दवा योजना के तहत दिए गए कफ सिरप के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है।
- "An inquiry report has confirmed that the [two] children were given cough syrup at home without medical advice," **Ravi Prakash Sharma, Director (Public Health)**, said in Jaipur. "एक जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि [दोनों] बच्चों को घर पर बिना चिकित्सीय परामर्श के कफ सिरप दिया गया था," रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक (जनस्वास्थ्य) ने जयपुर में कहा।
- Mr. Sharma said the doctors at the **government health facilities** in **Sikar and Bharatpur** had not prescribed dextromethorphan drugs in both incidents. "This generic cough syrup is not prescribed for children," he said. शर्मा ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सीकर और भरतपुर के डॉक्टरों ने दोनों घटनाओं में डेक्स्ट्रोमैथॉर्फान दवा नहीं लिखी थी। "यह सामान्य कफ सिरप बच्चों के लिए नहीं लिखा जाता है," उन्होंने कहा।



- However, **Kayson Pharma**, the firm based at **Sarna Doongar village in Jaipur**, which supplies drugs for the Chief Minister's free medicine scheme, has come under the State government's scanner. The Health Department has ordered a probe into the quality of all medicines manufactured by the firm.

हालांकि, **केसन फार्मा**, जो **जयपुर के सरना डूंगर गांव** में स्थित है और **मुख्यमंत्री की निःशुल्क दवा योजना** के लिए दवाएं आपूर्ति करती है, राज्य सरकार की निगरानी में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी द्वारा निर्मित सभी दवाओं की गुणवत्ता की जांच का आदेश दिया है।

- India has faced such crises before. In **2020, 12 children** died in **Jammu** after drinking a contaminated cough syrup. In **2022, 70 children** died in the **Gambia**, allegedly due to Indian syrups laced with DEG.

**भारत** पहले भी ऐसे संकटों का सामना कर चुका है। **2020** में, **जम्मू** में **12 बच्चों** की मौत एक **दूषित कफ सिरप** पीने से हुई थी। **2022** में, **गाम्बिया** में **70 बच्चों** की मौत हुई, कथित तौर पर **भारतीय सिरप** में **DEG** की मिलावट के कारण।

### Show-cause notice

#### कारण बताओ नोटिस

- The **Tamil Nadu government** has issued a **show-cause notice** to the manufacturer. **तमिलनाडु सरकार** ने निर्माता को एक **कारण बताओ नोटिस** जारी किया है।
- **S. Gurubharathi, Deputy Director of Drugs Control and Licensing Authority-cum-Controlling Authority, Tamil Nadu**, confirmed the finding. **एस. गुरुभारती, उपनिदेशक, औषधि नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण-सह-नियंत्रण प्राधिकरण, तमिलनाडु**, ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की।
- The Drugs Control Department said it had taken immediate **regulatory action** after receiving information on the deaths in **Madhya Pradesh** attributed to the drug containing **paracetamol, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate syrup (Coldrif Syrup), Batch No. SR-13 (manufacturing date of May 2025 and expiry date of April 2027)** manufactured by **Sreesan Pharmaceutical Manufacturer, Sunguvarchathiram, Kancheepuram district**. **औषधि नियंत्रण विभाग** ने कहा कि उसने **मध्य प्रदेश** में मौतों की जानकारी मिलने के बाद तत्काल **नियामक कार्रवाई** की। मौतें उस दवा से जुड़ी थीं जिसमें **पैरासिटामोल, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप (कोल्ड्रिफ सिरप), बैच नंबर SR-13 (निर्माण तिथि मई 2025 और समाप्ति तिथि अप्रैल 2027)** था, जिसे **श्रीसन फार्मास्युटिकल मैनुफैक्चरर, सुंगुवर्चथिरम, कांचीपुरम जिला** द्वारा निर्मित किया गया था।

### Advisory

#### सलाह

- The **Union Health Ministry** has issued an **advisory** to all States and Union Territories on rational use of cough syrups in children. **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय** ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों में कफ सिरप के **तर्कसंगत उपयोग** पर एक **सलाह** जारी की है।
- Advocating for safe, limited and only-under-prescription use of cough syrups, it said that cough in children is usually a self-limiting condition. **सुरक्षित, सीमित और केवल प्रिस्क्रिप्शन पर कफ सिरप के उपयोग की वकालत करते हुए**, इसमें कहा गया कि बच्चों में खांसी आमतौर पर एक **स्वयं-सीमित स्थिति** होती है।
- It cautioned against prescribing cough syrups to children below **two years of age**. **इसने दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप लिखने के खिलाफ चेतावनी दी।**



# Mullally appointed first woman to lead the Church of England

PCS  
Agence France-Presse  
LONDON

A 63-year-old former nurse, Sarah Mullally, was named as the first female Archbishop of Canterbury on Friday, pledging to improve safety at the Church of England following an abuse scandal that ousted her predecessor.

The former midwife becomes the first woman to lead the centuries-old mother church of the world's 85-million strong Anglican community.

Her nomination by a committee tasked with finding a successor to Justin Welby, who stepped down earlier this year, was approved by King Charles III, the U.K. government said.

Ms. Mullally acknowledged the "huge responsibility" of her new role and vowed to "confront the dynamics of power" that had led the church to cover up the abuse of dozens of boys and young men several decades ago.

## Tough road

She cautioned that it would "not be easy", due to a "history of safeguarding failures" that has "left a legacy of deep harm and mistrust" in the Church of England, which can trace its origins back to the Roman Empire. "We must all be willing to have light shone on our actions, regardless of our role in the church," she said during an appearance at Canterbury Cathedral in southeast En-



Sarah Mullally

gland following her appointment.

"As Archbishop, my commitment will be to ensure that we continue to listen to survivors, care for the vulnerable, and foster a culture of safety and well-being for all," Ms. Mullally added.

The Church of England

became the country's state establishment church following King Henry VIII's split from the Roman Catholic Church in the 1530s.

The British monarch is its supreme governor, while the Archbishop of Canterbury is seen as the spiritual leader of Anglicans worldwide.

Ms. Mullally, who is married with two children, will become the 106th Archbishop of Canterbury, the first having been appointed in the late sixth century, when she officially takes up the role following a ceremony due in January.

She worked in Britain's state-run National Health Service for more than three decades, rising to become its chief nursing of-

ficer for England in 1999.

Ordnained a priest in 2002, she became the first female Bishop of London in 2018, only four years after the church began allowing women bishops following years of bitter factional wrangling.

## Assisted dying Bill

Ms. Mullally has reportedly described herself as a feminist and called the decision to finally allow priests to bless same-sex couples in 2023 as "a moment of hope for the church", although she recognised that differences remained.

As one of 26 archbishops and bishops who sit in parliament's unelected House of Lords Upper Chamber, Ms. Mullally has been a vocal opponent of

plans to legalise assisted dying in England and Wales.

In June she called the Bill "unworkable and unsafe", adding "the potential for abuse and uninformed or coerced decisions is enormous".

Ms. Mullally will also have to grapple with falling church attendance numbers.

The Church of England has some 20 million baptised members, but the number of regular churchgoers is estimated at just under one million, according to figures for 2022.

Ms. Mullally was appointed by King Charles following a lengthy selection process under a former head of the MI5 domestic security service.

## Mullally appointed first woman to lead the Church of England

### मुलली को इंग्लैंड चर्च की नेतृत्व करने वाली पहली महिला नियुक्त किया गया

- A 63-year-old former nurse, Sarah Mullally, was named as the first female Archbishop of Canterbury on Friday, pledging to improve safety at the Church of England following an abuse scandal that ousted her predecessor.

63 वर्षीय पूर्व नर्स, सारा मुलली, को शुक्रवार को कैटरबरी की पहली महिला आर्चबिशप के रूप में नामित किया गया, और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती को बाहर करने वाले दुरुपयोग कांड के बाद इंग्लैंड चर्च में सुरक्षा सुधारने का संकल्प लिया।

- The former midwife becomes the first woman to lead the centuries-old mother church of the world's 85-million strong Anglican community.

पूर्व दाई विश्व की 85 मिलियन सदस्यीय एंग्लिकन समुदाय की सदियों पुरानी मुख्य चर्च का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं।

- Her nomination by a committee tasked with finding a successor to Justin Welby, who stepped down earlier this year, was approved by King Charles III, the U.K. government said.

उनका नामांकन उस समिति द्वारा किया गया जिसने इस वर्ष पहले पद छोड़ने वाले जस्टिन वेल्बी का उत्तराधिकारी खोजने का काम किया, और इसे किंग चार्ल्स III ने मंजूरी दी, यूके सरकार ने कहा।

- Ms. Mullally acknowledged the "huge responsibility" of her new role and vowed to "confront the dynamics of power" that had led the church to cover up the abuse of dozens of boys and young men several decades ago.

श्रीमती मुलली ने अपने नए पद की "भारी जिम्मेदारी" को स्वीकार किया और शक्ति के गतिशीलता का सामना करने का संकल्प लिया, जिसने चर्च को कई दशकों पहले कई लड़कों और युवा पुरुषों के दुरुपयोग को छुपाने के लिए प्रेरित किया।

## Tough road कठिन रास्ता

- She cautioned that it would "not be easy", due to a "history of safeguarding failures" that has "left a legacy of deep harm and mistrust" in the Church of England, which can trace its origins back to the Roman Empire.

उन्होंने चेतावनी दी कि यह "आसान नहीं होगा", क्योंकि इंग्लैंड चर्च में सुरक्षा विफलताओं के इतिहास ने "गहरा नुकसान और अविश्वास की विरासत" छोड़ी है, जिसका उद्गम रोमन साम्राज्य तक देखा जा सकता है।



- “We must all be willing to have light shone on our actions, regardless of our role in the church,” she said during an appearance at **Canterbury Cathedral** in **southeast England** following her appointment.  
“हम सभी को अपनी कार्रवाइयों पर प्रकाश डालने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे चर्च में हमारी भूमिका कुछ भी हो,” उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद **दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड** में **कैंटरबरी कैथेड्रल** में एक उपस्थिति के दौरान कहा।
- “As **Archbishop**, my commitment will be to ensure that we continue to **listen to survivors**, care for the **vulnerable**, and foster a **culture of safety and wellbeing** for all,” Ms. Mullally added.  
“**आर्चबिशप** के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना होगी कि हम **जीवित बचे लोगों की बात सुनना, कमजोरों की देखभाल करना**, और सभी के लिए **सुरक्षा और कल्याण की संस्कृति** को बढ़ावा देना जारी रखें,” श्रीमती मुलली ने जोड़ा।
- The **Church of England** plans to **legalise assisted dying** in **England and Wales**.  
**इंग्लैंड चर्च** ने **इंग्लैंड और वेल्स** में **सहायता प्राप्त मृत्यु को कानूनी बनाने** की योजना बनाई है।
- In **June** she called the **Bill “unworkable and unsafe”**, adding “the potential for abuse and uninformed or coerced decisions is enormous”.  
**जून** में उन्होंने **विधेयक को “अप्रायोग्य और असुरक्षित”** कहा, और जोड़ा कि “**दुरुपयोग और असूचित या जबरन किए गए निर्णयों की संभावना अत्यधिक है।**”
- Ms. Mullally will also have to grapple with **falling church attendance numbers**.  
श्रीमती मुलली को **घटते हुए चर्च उपस्थिति आंकड़ों** से भी निपटना होगा।
- The **Church of England** has some **20 million baptised members**, but the number of **regular churchgoers** is estimated at just under **one million**, according to figures for **2022**.  
**इंग्लैंड चर्च** के लगभग **20 मिलियन बपतिस्मा प्राप्त सदस्य** हैं, लेकिन **नियमित चर्च जाने वालों** की संख्या **2022** के आंकड़ों के अनुसार एक मिलियन से थोड़ी कम है।
- Ms. Mullally was appointed by **King Charles** following a lengthy selection process under a former head of the **MI5 domestic security service**.  
श्रीमती मुलली को **किंग चार्ल्स** द्वारा **MI5 घरेलू सुरक्षा सेवा** के पूर्व प्रमुख के तहत लंबी चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया।
- Ordained a **priest** in **2002**, she became the **first female Bishop of London** in **2018**, only four years after the church began allowing **women bishops** following years of **bitter factional wrangling**.  
**2002** में **पुरोहित** के रूप में नियुक्त होने के बाद, वह **2018** में **लंदन की पहली महिला बिशप** बनीं, केवल चार साल बाद जब चर्च ने **महिला बिशपों** को अनुमति देना शुरू किया, वर्षों की **कड़वी गुटीय झड़प** के बाद।

## Assisted dying Bill

### सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक

- Ms. Mullally has reportedly described herself as a **feminist** and called the decision to finally allow **priests to bless same-sex couples in 2023** as “a moment of hope for the church”, although she recognised that **differences remained**.  
श्रीमती मुलली ने कथित रूप से खुद को **नारीवादी** बताया और **2023** में **पुरोहितों को समलैंगिक जोड़ों का आशीर्वाद देने की अनुमति** देने के फैसले को चर्च के लिए “**एक आशा का क्षण**” कहा, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि **अंतर अभी भी मौजूद हैं।**
- As one of **26 archbishops and bishops** who sit in parliament’s unelected **House of Lords Upper Chamber**, Ms. Mullally has been a vocal opponent of becoming the country’s **state establishment church** following **King Henry VIII’s split from the Roman Catholic Church** in the **1530s**.  
**26 आर्चबिशप और बिशपों** में से एक के रूप में जो संसद के अप्रत्यक्ष **हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर चैंबर** में बैठते हैं, श्रीमती मुलली ने **1530 के दशक** में **किंग हेनरी VIII के रोमन कैथोलिक चर्च से विभाजन** के बाद देश की **राज्य स्थापित चर्च** बनने का मुखर विरोध किया है।
- The **British monarch** is its **supreme governor**, while the **Archbishop of Canterbury** is seen as the **spiritual leader of Anglicans worldwide**.  
**ब्रिटिश सम्राट** इसका **सर्वोच्च गवर्नर** है, जबकि **कैंटरबरी के आर्चबिशप** को **विश्वभर के एंग्लिकनों का आध्यात्मिक नेता** माना जाता है।



- Ms. Mullally, who is **married with two children**, will become the **106th Archbishop of Canterbury**, the first having been appointed in the **late sixth century**, when she officially takes up the role following a ceremony due in **January**.  
श्रीमती मुलली, जो **विवाहित और दो बच्चों की माँ** हैं, **106वीं कैंटरबरी आर्चबिशप** बनेंगी, पहला नियुक्त **छठी सदी के अंत** में किया गया था, जब वह **जनवरी** में होने वाले समारोह के बाद आधिकारिक रूप से पद ग्रहण करेंगी।
- She worked in **Britain's state-run National Health Service** for more than three decades, rising to become its **chief nursing officer**.  
उन्होंने **ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा** में तीन दशक से अधिक समय तक काम किया, और **मुख्य नर्सिंग अधिकारी** बनीं।

## Plans to legalise assisted dying in England and Wales इंग्लैंड और वेल्स में सहायक मृत्यु को वैध बनाने की योजनाएँ

- In June she called the Bill “unworkable and unsafe”, adding “the potential for abuse and uninformed or coerced decisions is enormous”.  
जून में उन्होंने इस बिल को “अकार्यकारी और असुरक्षित” कहा, और जोड़ा कि “दुरुपयोग और अनजान या बाध्य निर्णयों की संभावना बहुत अधिक है।”
- Ms. Mullally will also have to grapple with falling church attendance numbers.  
मिसेस मुलली को गिरती चर्च उपस्थिति की संख्या से भी निपटना होगा।
- The Church of England has some 20 million baptised members, but the number of regular churchgoers is estimated at just under one million, according to figures for 2022.  
इंग्लैंड के चर्च के लगभग **20 मिलियन** बपतिस्मा प्राप्त सदस्य हैं, लेकिन नियमित चर्च जाने वालों की संख्या 2022 के आंकड़ों के अनुसार **लगभग एक मिलियन** है।
- Ms. Mullally was appointed by King Charles following a lengthy selection process under a former head of the MI5 domestic security service.  
मिसेस मुलली को किंग चार्ल्स द्वारा **MI5 घरेलू सुरक्षा सेवा** के पूर्व प्रमुख के तहत लंबी चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था।
- Ordained a priest in 2002, she became the first female Bishop of London in 2018, only four years after the church began allowing women bishops following years of bitter factional wrangling.  
2002 में पादरी के रूप में नियुक्त होने के बाद, वह 2018 में **लंदन की पहली महिला बिशप** बनीं, केवल चार साल बाद जब चर्च ने वर्षों की कट्टर गुटीय झगड़ों के बाद महिलाओं को बिशप बनने की अनुमति दी।

## Assisted dying Bill सहायक मृत्यु बिल

- Ms. Mullally has reportedly described herself as a feminist and called the decision to finally allow priests to bless same-sex couples in 2023 as “a moment of hope for the church”, although she recognised that differences remained.  
कहा जाता है कि मिसेस मुलली ने खुद को **नारीवादी** बताया और 2023 में पादरी को समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की अनुमति देने के फैसले को “चर्च के लिए आशा का क्षण” कहा, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मतभेद अभी भी मौजूद हैं।
- As one of 26 archbishops and bishops who sit in parliament's unelected House of Lords Upper Chamber, Ms. Mullally has been a vocal opponent of संसद के **अचयनित हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपरी सदन** में बैठने वाले 26 आर्चबिशप और बिशपों में से एक के रूप में, मिसेस मुलली ने इसके विरोध में मुखर आवाज उठाई है



## GS Paper 1: History, Society and Geography

TOPICS COVERED 04 October 2025

### 1. Mamata accuses Centre-run DVC of releasing dam water amid high rain alert in Bengal

ममता ने केंद्र संचालित डीवीसी पर बंगाल में भारी बारिश अलर्ट के बीच बांध का पानी छोड़ने का आरोप लगाया

# Mamata accuses Centre-run DVC of releasing dam water amid high rain alert in Bengal

**GS I: Water Resources**

**Moyurie Som**

KOLKATA

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday accused the Damodar Valley Corporation (DVC) of putting the State 'in immediate peril' by discharging 65,000 cusecs of water from its dams and increasing the possibility of flooding downstream in West Bengal, amid forecasts of heavy rain and thunderstorms in the State.

"Bijoya Dashami marks the close of Durga Puja – a time for joy, cheer and renewed hope. Yet instead of allowing the people of West Bengal to conclude the festival in peace, the DVC released 65,000 cusecs of water without any prior notice to the State. This reckless act is nothing short of an attempt to inflict misery during our sacred festivities," the Chief Minister wrote in



The impending natural calamity would be a disaster manufactured by the DVC, said Chief Minister Mamata Banerjee. FILE PHOTO

a social media post on Friday, a day after Durga Puja festivities came to an end.

#### 'Shameful action'

In her post, she termed DVC's actions as "shameful and unacceptable" and alleged that the impending natural calamity would be a disaster manufactured by the DVC.

"Let me be clear: I will not allow anyone to carry out a Bisarjan (immersion)

of Bengal. Every conspiracy against our people will be resisted with full force. Truth will prevail over deceit and good will triumph over evil," Ms. Banerjee said.

The DVC is a multipurpose river valley project under the Union Ministry of Power that manages a network of dams in the Damodar river valley area spread across Jharkhand and West Bengal.



## Mamata accuses Centre-run DVC of releasing dam water amid high rain alert in Bengal

### ममता ने केंद्र संचालित डीवीसी पर बंगाल में भारी बारिश अलर्ट के बीच बांध का पानी छोड़ने का आरोप लगाया

- West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday accused the **Damodar Valley Corporation (DVC)** of putting the State 'in immediate peril' by discharging **65,000 cusecs of water** from its dams and increasing the possibility of **flooding** downstream in **West Bengal**, amid forecasts of heavy rain and thunderstorms in the State.  
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री **ममता बनर्जी** ने शुक्रवार को **दमोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी)** पर आरोप लगाया कि उसने राज्य को 'तत्काल संकट' में डाल दिया है क्योंकि उसने अपने बांधों से **65,000 क्यूसेक पानी** छोड़ा और राज्य में भारी बारिश और आंधी-तूफान की भविष्यवाणी के बीच **बाढ़** की संभावना बढ़ा दी।
- "Bijoya Dashami marks the close of **Durga Puja** — a time for joy, cheer and renewed hope. Yet instead of allowing the people of **West Bengal** to conclude the festival in peace, the **DVC** released **65,000 cusecs of water** without any prior notice to the State. This reckless act is nothing short of an attempt to inflict misery during our sacred festivities," the Chief Minister wrote in a social media post on Friday, a day after **Durga Puja** festivities came to an end.  
"विजया दशमी दुर्गा पूजा का समापन चिह्नित करती है — यह खुशी, उल्लास और नवीनीकृत आशा का समय है। फिर भी **पश्चिम बंगाल** के लोगों को शांति से त्योहार समाप्त करने देने के बजाय, **डीवीसी** ने राज्य को बिना किसी पूर्व सूचना के **65,000 क्यूसेक पानी** छोड़ दिया। यह लापरवाह कृत्य हमारे पवित्र उत्सवों के दौरान दुख पहुंचाने के प्रयास से कम नहीं है," मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक दिन बाद जब **दुर्गा पूजा** उत्सव समाप्त हुआ।

### 'Shameful action' 'शर्मनाक कार्य'

- In her post, she termed **DVC's actions** as "shameful and unacceptable" and alleged that the impending natural calamity would be a disaster manufactured by the **DVC**.  
अपने पोस्ट में, उन्होंने **डीवीसी की कार्यवाही** को "शर्मनाक और अस्वीकार्य" बताया और आरोप लगाया कि आसन्न प्राकृतिक आपदा **डीवीसी** द्वारा बनाई गई एक आपदा होगी।
- "Let me be clear: I will not allow anyone to carry out a **Bisarjan (immersion)** of Bengal. Every conspiracy against our people will be resisted with full force. Truth will prevail over deceit and good will triumph over evil," Ms. Banerjee said.  
"मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए: मैं किसी को भी बंगाल का **विसर्जन (डुबकी)** करने की अनुमति नहीं दूंगी। हमारे लोगों के खिलाफ हर साजिश का पूरी ताकत से प्रतिरोध किया जाएगा। सच झूठ पर हावी होगा और अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी," श्रीमती बनर्जी ने कहा।
- The **DVC** is a multipurpose river valley project under the **Union Ministry of Power** that manages a network of dams in the **Damodar river valley** area spread across **Jharkhand** and **West Bengal**.  
**डीवीसी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय** के अंतर्गत एक बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है जो **झारखंड** और **पश्चिम बंगाल** में फैले **दमोदर नदी घाटी** क्षेत्र में बांधों के नेटवर्क का प्रबंधन करती है।

## GS Paper II: Polity, Governance, And International Relations

### TOPICS COVERED

04 October 2025



- 1. Trump sets Sunday night deadline for Hamas to accept Gaza peace plan**  
हमास को गाज़ा शांति योजना स्वीकार करने के लिए ट्रम्प ने रविवार रात की समयसीमा तय की
- 2. Legality alone does not make a law just, says CJJ**  
केवल वैधता ही किसी कानून को न्यायपूर्ण नहीं बनाती, सीजेआई ने कहा
- 3. Peace mirage**  
शांति का मृगतृष्णा
- 4. Poland to join NATO's fuel network amid Russia tension**  
रूस के तनाव के बीच पोलैंड नाटो के ईंधन नेटवर्क से जुड़ेगा
- 5. As aid dwindles, WFP warns of 'catastrophic conditions' in Somalia**  
जैसे-जैसे सहायता घटती है, WFP सोमालिया में 'आपातकालीन परिस्थितियों' की चेतावनी देता है

## Trump sets Sunday night deadline for Hamas to accept Gaza peace plan

GS II: West Asia  
Agence France-Presse  
WASHINGTON

U.S. President Donald Trump has given Hamas until 2200 GMT (3:30 a.m. IST) on Sunday to accept his 20-point plan for peace in Gaza, warning the Palestinian militant group faced "all hell" if it did not agree to the terms.

The U.S. leader set the deadline — which would fall at 1:00 a.m. Monday in Gaza — after an official for the Islamist movement said earlier on Friday that the group still needed time to study the proposal to end nearly two years of devastating war in the Palestinian territory.

"If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas," Mr. Trump posted on his

Truth Social platform.

The proposal, backed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calls for a ceasefire, the release of hostages within 72 hours, Hamas's disarmament and a gradual Israeli withdrawal from Gaza.

That would be followed by a post-war transitional authority headed by Mr. Trump himself.

"Hamas is still continuing consultations regarding Trump's plan... and has informed mediators that the consultations are ongoing and need some time," the official said.

Mohammad Nazzal, a member of Hamas's political bureau, said in a statement on Friday that the "plan has points of concern, and we will announce our position on it soon".

On the ground on Fri-

day, Gaza's civil defence agency — a rescue force operating under Hamas authority — reported heavy air bombardment and artillery shelling on Gaza City.

It said Israeli strikes killed at least 11 people across the territory, including eight in Gaza City.

The Israeli military is waging an air and ground offensive on the territory's largest urban centre, from which hundreds of thousands have been forced to flee.

**"No safe place in Gaza"**

The UN on Friday reiterated there was no safe place in Gaza and that Israel-designated zones in the south were "places of death".

"The notion of a safe zone in the south is farcical," UNICEF spokesman James Elder said from the Gaza Strip.



Long walk: A camp for displaced Palestinians in Khan Younis in the southern Gaza Strip on Thursday, AFP.

Amnesty International condemned a "catastrophic wave of mass displacement" as Israel intensified its Gaza City offensive.

The rights group said hundreds of thousands of Palestinians, many of whom had already been displaced multiple times, were being forced into "overcrowded enclaves in

the south... that lack access to clean water, food, medical care, shelter and life-sustaining infrastructure".

As the war nears the two-year mark and the death toll continues to rise, protesters around the world have rallied at Israel's interception of a flotilla carrying pro-Palestinian activists and aid for Gaza.

On Friday, the organisers of the Global Sumud Flotilla said its last remaining boat had been intercepted and Israel's Foreign Ministry said it had deported four Italian participants.

As Hamas mulled Mr. Trump's peace plan this week, a Palestinian source close to the group's leadership told AFP on Wednesday that the Islamist movement wanted to amend some clauses, including the one on disarmament.

Hamas leaders also want "international guarantees" for a full Israeli withdrawal and that no assassination attempts would be made inside or outside Gaza, the source added.

Another source said that the group was split over Mr. Trump's plan.

Structurally, the group's leadership is divided bet-

ween officials based in the Gaza Strip and those abroad, particularly in Qatar.

Much of Hamas's leadership has also been wiped out in Israeli attacks throughout the war.

The source said that "the first [opinion] supports unconditional approval, as the priority is a ceasefire under Trump's guarantees, with mediators ensuring Israel implements the plan".

"The second has serious reservations regarding key clauses... They favour conditional approval with clarifications reflecting Hamas's and the resistance factions' demands," the source added.

Hugh Lovatt, a senior policy fellow at the European Council on Foreign Relations, said "ultimately it's not just about convinc-

ing Hamas leadership in Doha, but also the leadership in Gaza, as well as Hamas members and fighters in Gaza".

"Additionally, Hamas must then be able to convince other factions in Gaza," he added.

The war was triggered by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, which resulted in the deaths of 1,219 people, mostly civilians, according to an AFP tally of Israeli official figures. Israel's retaliatory offensive has killed at least 66,288 Palestinians, according to health ministry figures in the Hamas-run territory that the United Nations considers reliable. Their data does not distinguish between civilians and combatants, but indicates that more than half of the dead are women and children.

## Trump sets Sunday night deadline for Hamas to accept Gaza peace plan

हमास को गाज़ा शांति योजना स्वीकार करने के लिए ट्रम्प ने रविवार रात की समयसीमा तय की

- U.S. President Donald Trump has given Hamas until 2200 GMT (3:30 a.m. IST) on Sunday to accept his 20-point plan for peace in Gaza, warning the Palestinian militant group faced "all hell" if it did not agree to the terms.  
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को रविवार तक 2200 GMT (3:30 a.m. IST) का समय दिया है गाज़ा में शांति के लिए उनकी 20-सूत्रीय योजना स्वीकार करने के लिए, चेतावनी दी कि अगर उसने शर्तें नहीं मानीं तो फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह को "भयंकर नरक" का सामना करना पड़ेगा।
- The U.S. leader set the deadline — which would fall at 1:00 a.m. Monday in Gaza — after an official for the Islamist movement said earlier on Friday that the group still needed time to study the proposal to end nearly two years of devastating war in the Palestinian territory.  
अमेरिकी नेता ने यह समयसीमा तय की — जो गाज़ा में सोमवार 1:00 a.m. पर पड़ेगी — जब इस्लामवादी आंदोलन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को पहले कहा था कि समूह को फिलिस्तीनी क्षेत्र में लगभग दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए अभी भी समय चाहिए।
- "If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas," Mr. Trump posted on his Truth Social platform.



“अगर यह अंतिम मौका समझौता नहीं हुआ, तो ऐसा भयंकर नरक टूट पड़ेगा जैसा पहले किसी ने नहीं देखा, और वह हमारा के खिलाफ होगा,” श्री ट्रम्प ने अपने ट्विटर सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

- The proposal, backed by **Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu**, calls for a ceasefire, the release of hostages within **72 hours**, **Hamas's disarmament** and a gradual **Israeli withdrawal from Gaza**.  
**इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू** द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में युद्धविराम, **72 घंटे** के भीतर बंधकों की रिहाई, **हमारा का निरस्त्रीकरण** और **गाज़ा** से इजरायल की क्रमिक वापसी की मांग की गई है।
- That would be followed by a post-war transitional authority headed by Mr. **Trump** himself. इसके बाद युद्ध के बाद की एक अंतरिम प्राधिकरण बनेगी जिसकी अध्यक्षता स्वयं श्री **ट्रम्प** करेंगे।
- “Hamas is still continuing consultations regarding **Trump's plan**... and has informed mediators that the consultations are ongoing and need some time,” the official said.  
“**हमारा** अभी भी **ट्रम्प की योजना** के बारे में परामर्श जारी रखे हुए है... और उसने मध्यस्थों को सूचित किया है कि परामर्श जारी है और इसके लिए समय चाहिए,” अधिकारी ने कहा।
- **Mohammad Nazzal**, a member of **Hamas's political bureau**, said in a statement on Friday that the “plan has points of concern, and we will announce our position on it soon”.  
**मोहम्मद नज़ाल**, **हमारा के राजनीतिक ब्यूरो** के सदस्य ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि “योजना में चिंताजनक बिंदु हैं, और हम जल्द ही इस पर अपना रुख घोषित करेंगे।”
- On the ground on Friday, **Gaza's civil defence agency** — a rescue force operating under Hamas authority — reported heavy air bombardment and artillery shelling on **Gaza City**.  
शुक्रवार को जमीनी स्तर पर, **गाज़ा की नागरिक रक्षा एजेंसी** — जो हमारा के अधिकार के तहत एक बचाव बल है — ने **गाज़ा सिटी** पर भारी हवाई बमबारी और तोपखाने की गोलाबारी की सूचना दी।
- It said **Israeli strikes** killed at least **11 people** across the territory, including **eight in Gaza City**.  
इसने कहा कि **इजरायली हमलों** में पूरे क्षेत्र में कम से कम **11 लोग** मारे गए, जिनमें से **आठ गाज़ा सिटी** में थे।
- The **Israeli military** is waging an air and ground offensive on the territory's largest urban centre, from which hundreds of thousands have been forced to flee.  
**इजरायली सेना** क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी केंद्र पर हवाई और जमीनी हमला कर रही है, जिससे लाखों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है।

### ‘No safe place in Gaza’

#### ‘गाज़ा में कोई सुरक्षित स्थान नहीं’

- The **UN** on Friday reiterated there was no safe place in **Gaza** and that **Israel-designated zones** in the south were “places of death”.  
**संयुक्त राष्ट्र** ने शुक्रवार को दोहराया कि **गाज़ा** में कोई सुरक्षित स्थान नहीं है और दक्षिण में **इजरायल-निर्धारित क्षेत्र** “मौत की जगहें” हैं।
- “The notion of a safe zone in the south is farcical,” **UNICEF** spokesman **James Elder** said from the **Gaza Strip**.  
“दक्षिण में सुरक्षित क्षेत्र की धारणा हास्यास्पद है,” **यूनिसेफ** के प्रवक्ता **जेम्स एल्डर** ने **गाज़ा पट्टी** से कहा।
- **Amnesty International** condemned a “catastrophic wave of mass displacement” as **Israel** intensified its **Gaza City offensive**.  
**एमनेस्टी इंटरनेशनल** ने “जन विस्थापन की विनाशकारी लहर” की निंदा की क्योंकि **इजरायल** ने अपने **गाज़ा सिटी हमले** को तेज़ कर दिया।
- The rights group said hundreds of thousands of **Palestinians**, many of whom had already been displaced multiple times, were being forced into “overcrowded enclaves in the south... that lack access to clean water, food, medical care, shelter and life-sustaining infrastructure”.  
अधिकार समूह ने कहा कि लाखों **फिलिस्तीनी**, जिनमें से कई पहले ही कई बार विस्थापित हो चुके हैं, उन्हें “दक्षिण में भीड़भाड़ वाले इलाकों में मजबूर किया जा रहा है... जहां साफ पानी, भोजन, चिकित्सा देखभाल, आश्रय और जीवन को बनाए रखने वाला बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।”
- The war was triggered by **Hamas's October 7, 2023 attack on Israel**, which resulted in the deaths of **1,219 people**, mostly civilians, according to an **AFP tally of Israeli official figures**.  
युद्ध की शुरुआत **हमारा के 7 अक्टूबर, 2023 के इजरायल पर हमले** से हुई, जिसमें **1,219 लोग** मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, **AFP** द्वारा **इजरायली आधिकारिक आंकड़ों** के अनुसार।



- Israel's retaliatory offensive** has killed at least **66,288 Palestinians**, according to health ministry figures in the **Hamas-run territory** that the **United Nations** considers reliable. Their data does not distinguish between civilians and combatants, but indicates that more than half of the dead are women and children.

**इजरायल के जवाबी हमले** ने कम से कम **66,288 फिलिस्तीनियों** को मार डाला है, **हमास-प्रशासित क्षेत्र** के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिन्हें **संयुक्त राष्ट्र** विश्वसनीय मानता है। उनके आंकड़े नागरिकों और लड़ाकों में भेद नहीं करते, लेकिन यह संकेत देते हैं कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।
- Much of **Hamas's leadership** has also been wiped out in **Israeli attacks** throughout the war. युद्ध के दौरान **हमास के नेतृत्व** का अधिकांश हिस्सा **इजरायली हमलों** में भी समाप्त कर दिया गया है।
- The source said that "the first [opinion] supports unconditional approval, as the priority is a ceasefire under **Trump's guarantees**, with mediators ensuring **Israel** implements the plan". स्रोत ने कहा कि "पहला [मत] बिना शर्त स्वीकृति का समर्थन करता है, क्योंकि प्राथमिकता **ट्रम्प की गारंटी** के तहत युद्धविराम है, जिसमें मध्यस्थ सुनिश्चित करेंगे कि **इजरायल** योजना को लागू करे।"
- "The second has serious reservations regarding key clauses... They favour conditional approval with clarifications reflecting Hamas's and the resistance factions' demands," the source added.

"दूसरे में मुख्य प्रावधानों को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं... वे हमास और प्रतिरोध गुटों की मांगों को दर्शाने वाले स्पष्टीकरणों के साथ सशर्त स्वीकृति का समर्थन करते हैं," स्रोत ने जोड़ा।
- Hugh Lovatt**, a senior policy fellow at the **European Council on Foreign Relations**, said "ultimately it's not just about convincing Hamas leadership in Doha, but also the leadership in Gaza, as well as Hamas members and fighters in Gaza".

**ह्यूग लोवाट**, यूरोपीय परिषद विदेश संबंधों में वरिष्ठ नीति फेलो ने कहा "आखिरकार यह सिर्फ दोहा में हमास नेतृत्व को मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि गाज़ा में नेतृत्व के साथ-साथ गाज़ा में हमास के सदस्यों और लड़ाकों को भी मनाने के बारे में है।"
- As **Hamas** mulled Mr. **Trump's peace plan** this week, a Palestinian source close to the group's leadership told **AFP** on Wednesday that the Islamist movement wanted to amend some clauses, including the one on **disarmament**.

जब इस सप्ताह **हमास** ने श्री **ट्रम्प की शांति योजना** पर विचार किया, तो समूह के नेतृत्व के करीबी एक फिलिस्तीनी स्रोत ने बुधवार को **AFP** को बताया कि इस्लामी आंदोलन कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, जिनमें **निरस्त्रीकरण** वाला प्रावधान भी शामिल है।
- Hamas leaders** also want "international guarantees" for a full **Israeli withdrawal** and that no assassination attempts would be made inside or outside **Gaza**, the source added.

**हमास नेता** यह भी चाहते हैं कि पूरी तरह से **इजरायली वापसी** के लिए "अंतर्राष्ट्रीय गारंटी" हो और यह भी सुनिश्चित हो कि **गाज़ा** के अंदर या बाहर कोई हत्या का प्रयास न किया जाए, स्रोत ने जोड़ा।
- Another source said that the group was split over Mr. **Trump's plan**. Structurally, the group's leadership is divided between officials based in the **Gaza Strip** and those abroad, particularly in **Qatar**.

एक अन्य स्रोत ने कहा कि समूह श्री **ट्रम्प की योजना** पर बंटा हुआ है। संरचनात्मक रूप से, समूह का नेतृत्व **गाज़ा पट्टी** में स्थित अधिकारियों और विदेशों में, विशेषकर **कतर** में स्थित अधिकारियों के बीच विभाजित है।
- On Friday, the organisers of the **Global Sumud Flotilla** said its last remaining boat had been intercepted and **Israel's Foreign Ministry** said it had deported four **Italian participants**.

शुक्रवार को **ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला** के आयोजकों ने कहा कि उसकी अंतिम बची हुई नाव को रोक लिया गया है और **इजरायल के विदेश मंत्रालय** ने कहा कि उसने चार **इतालवी प्रतिभागियों** को निर्वासित कर दिया है।

## Hamas leadership and Trump's Gaza plan

### हमास नेतृत्व और ट्रम्प की गाज़ा योजना

- ing **Hamas leadership** in Doha, but also the leadership in **Gaza**, as well as **Hamas members and fighters in Gaza**".

दोहा में **हमास नेतृत्व**, लेकिन साथ ही **गाज़ा** में नेतृत्व, और **गाज़ा** में **हमास के सदस्य और लड़ाके** भी।"
- "Additionally, **Hamas** must then be able to convince other factions in **Gaza**," he added.

"इसके अलावा, **हमास** को फिर **गाज़ा** में अन्य गुटों को मनाने में सक्षम होना चाहिए," उन्होंने जोड़ा।
- The war was triggered by **Hamas's October 7, 2023 attack on Israel**, which resulted in the deaths of **1,219 people**, mostly civilians, according to an **AFP tally of Israeli official figures**.



युद्ध की शुरुआत **हमास के 7 अक्टूबर, 2023 को इज़रायल पर हमले** से हुई, जिसमें **1,219 लोग** मारे गए, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे, **AFP द्वारा इज़रायली आधिकारिक आंकड़ों** के अनुसार।

- **Israel's retaliatory offensive** has killed at least **66,288 Palestinians**, according to health ministry figures in the **Hamas-run territory** that the **United Nations** considers reliable. Their data does not distinguish between civilians and combatants, but indicates that more than half of the dead are women and children.

**इज़रायल के जवाबी हमले** ने कम से कम **66,288 फिलिस्तीनियों** को मार दिया है, **हमास-नियंत्रित क्षेत्र** के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिन्हें **संयुक्त राष्ट्र** विश्वसनीय मानता है। उनके आंकड़े नागरिकों और लड़ाकों में भेद नहीं करते, लेकिन यह संकेत देते हैं कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।

- were officials based in the **Gaza Strip** and those abroad, particularly in **Qatar**.  
**गाज़ा पट्टी** में स्थित अधिकारियों और विदेशों में, विशेष रूप से **कतर** में स्थित अधिकारियों के बीच।
- Much of **Hamas's leadership** has also been wiped out in **Israeli attacks** throughout the war. युद्ध के दौरान **हमास के नेतृत्व** का बड़ा हिस्सा भी **इज़रायली हमलों** में समाप्त कर दिया गया है।
- The source said that “the first [opinion] supports unconditional approval, as the priority is a ceasefire under **Trump's guarantees**, with mediators ensuring **Israel** implements the plan”.  
स्रोत ने कहा कि “पहला [मत] बिना शर्त स्वीकृति का समर्थन करता है, क्योंकि प्राथमिकता **ट्रम्प की गारंटी** के तहत युद्धविराम है, जिसमें मध्यस्थ सुनिश्चित करेंगे कि **इज़रायल** योजना को लागू करे।”
- “The second has serious reservations regarding key clauses... They favour conditional approval with clarifications reflecting **Hamas's** and the resistance factions' demands,” the source added.

“दूसरे को मुख्य प्रावधानों को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं... वे **हमास** और प्रतिरोध गुटों की मांगों को दर्शाने वाले स्पष्टीकरणों के साथ सशर्त स्वीकृति का समर्थन करते हैं,” स्रोत ने जोड़ा।

- **Hugh Lovatt**, a senior policy fellow at the **European Council on Foreign Relations**, said “ultimately it's not just about convincing. On Friday, the organisers of the **Global Sumud Flotilla** said its last remaining boat had been intercepted and **Israel's Foreign Ministry** said it had deported four **Italian participants**.”

**ह्यूग लोवाट, यूरोपीय परिषद विदेशी संबंधों** में वरिष्ठ नीति फेलो ने कहा “आखिरकार यह सिर्फ मनाने का मामला नहीं है शुक्रवार को, **ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला** के आयोजकों ने कहा कि उसकी अंतिम बची हुई नाव को रोक लिया गया है और **इज़रायल के विदेश मंत्रालय** ने कहा कि उसने चार **इतालवी प्रतिभागियों** को निर्वासित कर दिया है।”

- As **Hamas** mulled Mr. **Trump's peace plan** this week, a Palestinian source close to the group's leadership told **AFP** on Wednesday that the Islamist movement wanted to amend some clauses, including the one on **disarmament**.

जब इस सप्ताह **हमास** ने श्री **ट्रम्प की शांति योजना** पर विचार किया, तो समूह के नेतृत्व के करीबी एक फिलिस्तीनी स्रोत ने बुधवार को **AFP** को बताया कि इस्लामी आंदोलन कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, जिनमें **निरस्त्रीकरण** वाला प्रावधान भी शामिल है।

- **Hamas leaders** also want “international guarantees” for a full **Israeli withdrawal** and that no assassination attempts would be made inside or outside **Gaza**, the source added.

**हमास नेता** यह भी चाहते हैं कि पूरी तरह से **इज़रायली वापसी** के लिए “अंतर्राष्ट्रीय गारंटी” हो और यह भी सुनिश्चित हो कि **गाज़ा** के अंदर या बाहर कोई हत्या का प्रयास न किया जाए, स्रोत ने जोड़ा।

- Another source said that the group was split over Mr. **Trump's plan**.

एक अन्य स्रोत ने कहा कि समूह श्री **ट्रम्प की योजना** पर बंटा हुआ है।

- Structurally, the group's leadership is divided bet संरचनात्मक रूप से, समूह का नेतृत्व विभाजित है।



## Legality alone does not make a law just, says CJI

GS II: Justice System

Krishnadas Rajagopal

NEW DELHI

Drawing parallels between sedition laws in Independent India, slavery in the U.S., and the Criminal Tribes Act in colonial India, Chief Justice of India B.R. Gavai on Saturday said that “legality alone does not confer fairness or justice” on a law.

“It is important to remember that just because something is legalised, it does not mean it is just. History offers numerous examples of this painful truth. Slavery was once legal in many parts of the world, including the U.S. In India, colonial legislation such as the Criminal Tribes Act of 1871 branded entire communities criminals by birth. Laws of sedition were often used to suppress resistance against oppressive legal systems,” Chief Justice Gavai observed in his inaugural Sir Maurice Rault Memorial Lecture 2025.

He said that the Indian Constitution distinguished between what was legal and what was fair or just. Constitutional provisions on the judiciary were framed with a sense of “idealism”, ensuring that courts would act as a check against the undue exercise of power by the Executive.

## Legality alone does not make a law just, says CJI केवल वैधता ही किसी कानून को न्यायपूर्ण नहीं बनाती, सीजेआई ने कहा

• Drawing parallels between **sedition laws** in Independent India, **slavery** in the **U.S.**, and the **Criminal Tribes Act** in colonial India, **Chief Justice of India B.R. Gavai** on Saturday said that “legality alone does not confer fairness or justice” on a law.

स्वतंत्र भारत में राजद्रोह कानूनों, अमेरिका में गुलामी, और औपनिवेशिक भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बीच समानता दर्शाते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि “केवल वैधता ही किसी कानून को न्याय या निष्पक्षता नहीं देती।”

• “It is important to remember that just because something is legalised, it does not mean it is just. History or numerous examples of this painful truth. **Slavery** was once legal in many parts of the world, including the **U.S.** In **India**, colonial legislation such as the **Criminal Tribes Act of 1871** branded entire communities criminals by birth. Laws of **sedition** were often used to suppress resistance against oppressive legal systems,” Chief Justice Gavai observed in his inaugural **Sir Maurice Rault Memorial Lecture 2025**.

“यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि कुछ वैध बना दिया गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह न्यायपूर्ण है। इतिहास इस दर्दनाक सत्य के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। **गुलामी** कभी दुनिया के कई हिस्सों में, जिसमें **अमेरिका** भी शामिल है, वैध थी। **भारत** में, **1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट** जैसी औपनिवेशिक कानून ने संपूर्ण समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। **राजद्रोह कानूनों** का अक्सर दमनकारी कानूनी व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रतिरोध को दबाने के लिए उपयोग किया जाता था,” मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने उद्घाटन **सर मॉरिस रॉल्ट स्मारक व्याख्यान 2025** में कहा।

• He said that the **Indian Constitution** distinguished between what was legal and what was fair or just.

उन्होंने कहा कि **भारतीय संविधान** ने इस बात के बीच अंतर किया कि क्या वैध है और क्या न्यायसंगत या निष्पक्ष।

• **Constitutional provisions** on the **judiciary** were framed with a sense of “idealism”, ensuring that **courts** would act as a check against the undue exercise of power by the **Executive**.

**न्यायपालिका** पर **संवैधानिक प्रावधान** “आदर्शवाद” की भावना से बनाए गए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **न्यायालय कार्यपालिका** द्वारा शक्ति के अनुचित प्रयोग पर नियंत्रण रखेंगे।



GS II: West Asia

## Peace mirage

The Trump plan serves Israeli goals and does little for Palestinians

President Donald Trump's 20-point "peace plan" for Gaza has won rare approval from Israel and key Arab countries. While Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu says it aligns with Israel's war objectives, Arab and Muslim leaders have welcomed the initiative as a step towards peace. But one truly important voice is missing – that of any representative of the Palestinian people. When the latest phase of the Gaza war began, following Hamas's October 7, 2023 attack, Israel vowed to "destroy" the Islamist militant group. Two years on, Israel has turned Gaza into dust and displaced the entire population. Yet, Hamas has not been totally defeated. Any lasting peace hinges on an agreement between Israel and true representatives of Palestinians, even if Hamas is to be kept out. Mr. Trump and Mr. Netanyahu have issued an ultimatum to Hamas: accept the plan or face continued Israeli attacks. The Trump plan promises an immediate ceasefire in return for the release of all hostages. It further states that Palestinians will not be forced to leave. For a population living in makeshift shelters, a ceasefire and the permission to stay on will be a relief. But beyond this veneer of concession, the rest of the plan is structured almost entirely to serve Israeli interests.

It proposes to place Gaza under an international governance body overseen by a 'Board of Peace', chaired by Mr. Trump. The plan further calls for the deployment of an International Stabilisation Force (ISF) in Gaza, while allowing the Israeli troops to retain "a security perimeter". Hamas will have to demobilise itself. In essence, Gaza would be placed under a new colonial-type administration and a foreign military force, while Israel would continue to occupy parts of the enclave. Palestinians will be excluded from the top decision making bodies until "reforms of the Palestinian Authority are complete". This is a plan written in sand. Even if Hamas were to accept the proposal and disband itself, or if Palestinians were to reject Hamas completely, there is no assurance that the Palestinian resistance will wither away. Without a credible pathway to Palestinian statehood, violence will continue in one form or another – the message of October 7. The plan offers no timeline for its lofty goals; it does not specify which countries would contribute troops to the ISF; nor does it clarify who would oversee the implementation process or the "reforms" within the Palestinian Authority. Rather than forcing his ally to end its daily attacks on Palestinians and withdraw through a ceasefire for hostages agreement, Mr. Trump is making an already intractable conflict more complicated. This proposal will not win him peace. Rather, it will drag him deeper into the quicksand of West Asia.

रहने की अनुमति एक राहत होगी।

## Peace mirage शांति का मृगतृष्णा

• The Trump plan serves Israeli goals and does little for Palestinians  
ट्रंप योजना **इजरायली लक्ष्यों** को पूरा करती है और **फिलिस्तीनियों** के लिए बहुत कम करती है

### Trump's 20-Point Peace Plan for Gaza गाज़ा के लिए ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना

• President **Donald Trump's 20-point "peace plan" for Gaza** has won rare approval from **Israel** and key **Arab countries**.

गाज़ा के लिए राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय "शांति योजना"** को **इज़राइल** और प्रमुख **अरब देशों** से दुर्लभ स्वीकृति मिली है।

• While Israel Prime Minister **Benjamin Netanyahu** says it aligns with Israel's **war objectives**, Arab and Muslim leaders have welcomed the initiative as a step towards **peace**.

जहाँ इज़राइल के प्रधानमंत्री **बेंजामिन नेतन्याहू** कहते हैं कि यह इज़राइल के **युद्ध लक्ष्यों** के अनुरूप है, वहीं अरब और मुस्लिम नेताओं ने इस पहल का स्वागत **शांति की दिशा में कदम** के रूप में किया है।

• But one truly important voice is missing — that of any representative of the **Palestinian people**.

लेकिन एक महत्वपूर्ण आवाज़ गायब है — **फ़िलिस्तीनी लोगों** के किसी प्रतिनिधि की।

• When the latest phase of the **Gaza war** began, following **Hamas's October 7, 2023 attack**, Israel vowed to "destroy" the Islamist militant group.

जब **हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले** के बाद **गाज़ा युद्ध** का नवीनतम चरण शुरू हुआ, तो इज़राइल ने इस इस्लामी उग्रवादी समूह को "नष्ट" करने की कसम खाई।

• Two years on, Israel has turned **Gaza into dust** and displaced the entire population. Yet, **Hamas** has not been totally defeated.

दो साल बाद, इज़राइल ने **गाज़ा को मलबे में बदल दिया** और पूरी आबादी को विस्थापित कर दिया। फिर भी, **हमास** पूरी तरह पराजित नहीं हुआ।

• Any lasting peace hinges on an agreement between **Israel** and true representatives of **Palestinians**, even if Hamas is to be kept out.

किसी भी स्थायी शांति का आधार **इज़राइल** और **फ़िलिस्तीनियों** के वास्तविक प्रतिनिधियों के बीच समझौता है, भले ही हमास को बाहर रखा जाए।

• Mr. Trump and Mr. Netanyahu have issued an **ultimatum** to Hamas: accept the plan or face continued **Israeli attacks**.

श्री ट्रंप और श्री नेतन्याहू ने हमास को **अल्टीमेटम** दिया है: योजना स्वीकार करो या लगातार **इज़राइली हमलों** का सामना करो।

• The **Trump plan promises an immediate ceasefire in return for the release of all hostages**.

**ट्रंप योजना** सभी **बंधकों** की रिहाई के बदले तुरंत **युद्धविराम** का वादा करती है।

• It further states that **Palestinians will not be forced to leave**. For a population living in makeshift shelters, a ceasefire and the permission to stay on will be a relief.

इसमें आगे कहा गया है कि **फ़िलिस्तीनियों** को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अस्थायी आश्रयों में रहने वाली आबादी के लिए युद्धविराम और वहीं



- But beyond this veneer of concession, the rest of the plan is structured almost entirely to serve **Israeli interests**.  
लेकिन इस ढोंग भरे रियायत से परे, योजना का बाकी हिस्सा लगभग पूरी तरह **इज़राइल के हितों** की सेवा करने के लिए संरचित है।
- It proposes to place **Gaza** under an **international governance body** overseen by a '**Board of Peace**', chaired by Mr. Trump.  
यह सुझाव देता है कि **गाज़ा** को एक **अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय** के अधीन रखा जाए, जिसकी देखरेख '**बोर्ड ऑफ पीस**' करेगा और इसकी अध्यक्षता श्री ट्रंप करेंगे।
- The plan further calls for the deployment of an **International Stabilisation Force (ISF)** in Gaza, while allowing the **Israeli troops** to retain "a security perimeter".  
योजना में गाज़ा में एक **अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF)** की तैनाती की बात कही गई है, जबकि **इज़राइली सैनिकों** को "सुरक्षा परिधि" बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।
- **Hamas** will have to **demobilise** itself. In essence, Gaza would be placed under a new **colonial-type administration** and a **foreign military force**, while **Israel** would continue to occupy parts of the enclave.  
**हमास** को स्वयं को **भंग** करना होगा। मूल रूप से, गाज़ा को एक नए **औपनिवेशिक-प्रकार के प्रशासन** और एक **विदेशी सैन्य बल** के अधीन रखा जाएगा, जबकि **इज़राइल** एन्क्लेव के कुछ हिस्सों पर कब्जा बनाए रखेगा।
- **Palestinians** will be excluded from the top decision-making bodies until "reforms of the Palestinian Authority are complete".  
"फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार पूरे होने" तक **फ़िलिस्तीनियों** को शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्थाओं से बाहर रखा जाएगा।
- This is a plan **written in sand**. Even if Hamas were to accept the proposal and disband itself, or if Palestinians were to reject Hamas completely, there is no assurance that the **Palestinian resistance** will wither away.  
यह एक योजना है जो **रेत पर लिखी गई है**। भले ही हमास प्रस्ताव को स्वीकार कर स्वयं को भंग कर दे, या फ़िलिस्तीनी पूरी तरह हमास को अस्वीकार कर दें, कोई आश्वासन नहीं है कि **फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध** समाप्त हो जाएगा।
- Without a credible pathway to **Palestinian statehood**, violence will continue in one form or another — the message of **October 7**.  
**फ़िलिस्तीनी राज्य** की ओर एक विश्वसनीय मार्ग के बिना, हिंसा किसी न किसी रूप में जारी रहेगी — यही **7 अक्टूबर** का संदेश है।
- The plan offers **no timeline** for its lofty goals; it does not specify which countries would contribute troops to the **ISF**; nor does it clarify who would oversee the implementation process or the "reforms" within the **Palestinian Authority**.  
योजना अपने ऊँचे लक्ष्यों के लिए **कोई समयसीमा** नहीं देती; यह नहीं बताती कि कौन से देश **ISF** में सैनिक देंगे; और न ही यह स्पष्ट करती है कि **फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण** के भीतर कार्यान्वयन प्रक्रिया या "सुधारों" की देखरेख कौन करेगा।
- Rather than forcing his ally to end its **daily attacks** on Palestinians and withdraw through a **ceasefire-for-hostages agreement**, Mr. Trump is making an already intractable **conflict** more complicated.  
अपने सहयोगी को फ़िलिस्तीनियों पर अपने **दैनिक हमले** समाप्त करने और **बंधकों के बदले युद्धविराम समझौते** के माध्यम से वापस लेने के लिए मजबूर करने के बजाय, श्री ट्रंप पहले से ही कठिन **संघर्ष** को और अधिक जटिल बना रहे हैं।
- This proposal will not win him **peace**. Rather, it will drag him deeper into the **quicksand of West Asia**.  
यह प्रस्ताव उन्हें **शांति** नहीं दिलाएगा। बल्कि, यह उन्हें **पश्चिम एशिया की दलदल** में और गहराई तक खींच ले जाएगा।



# Poland to join NATO's fuel network amid Russia tension

**GS II: Regional Groupings**

WARSAW

A quarter of a century after it joined NATO and amid rising tension on its eastern frontier, Poland will finally join the alliance's fuel pipeline network, the government said on Friday.

The Western allies operate a 10,000-km network of European pipelines, bringing fuel and lubricants for tanks and aircraft to where troops might need them in time of war.

But the system was set up during the Cold War, when Poland was still a member of the opposing Warsaw Pact, and NATO's pipelines still do not reach its bases closer to the borders with Russia and Belarus.

Poland has been consi-



Cezary Tomczyk

dering joining the NATO Pipeline System (NPS) for many years, and on Friday, the Defence Ministry and national pipeline operator PERN unveiled a €4.7-billion to do so.

"This is one of the largest investments in the security of the Polish state in the last 30 years," Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk told reporters at

the signing ceremony.

Warsaw, the Minister said, plans to build a 300-km pipeline from Germany to its military base in Bydgoszcz, in north-central Poland and home to NATO's "joint force training centre" and several support units.

The alliance has helped fund the studies underlying the planning of the extension, but Poland and PERN will build and operate their section of the project once all 32 allies give the go-ahead.

Poland is NATO's leading military spender in terms of proportion of GDP assigned to military and security programmes and a staunch ally of neighbouring Ukraine, which suffered an all-out Russian invasion in February 2022.

## Poland to join NATO's fuel network amid Russia tension

### रूस के तनाव के बीच पोलैंड नाटो के ईंधन नेटवर्क से जुड़ेगा

- A quarter of a century after it joined **NATO** and amid rising tension on its eastern frontier, **Poland** will finally join the alliance's **fuel pipeline network**, the government said on **Friday**. नाटो में शामिल होने के पच्चीस साल बाद और अपने पूर्वी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, **पोलैंड** अंततः गठबंधन के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ेगा, सरकार ने **शुक्रवार** को कहा।
- The **Western allies** operate a **10,000-km network** of European pipelines, bringing **fuel and lubricants** for tanks and aircraft to where troops might need them in time of war. पश्चिमी सहयोगी **10,000 किलोमीटर** के यूरोपीय पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन करते हैं, जो **टैंकों और विमानों के लिए ईंधन और लुब्रिकेंट** उन स्थानों तक पहुंचाते हैं जहाँ युद्ध के समय सैनिकों को उनकी आवश्यकता हो सकती है।
- But the system was set up during the **Cold War**, when **Poland** was still a member of the opposing **Warsaw Pact**, and **NATO's pipelines** still do not reach its bases closer to the



borders with **Russia** and **Belarus**.

लेकिन यह प्रणाली **शीत युद्ध** के दौरान स्थापित की गई थी, जब **पोलैंड** अभी भी **वारसॉ संधि** का सदस्य था, और **नाटो की पाइपलाइन** अब भी **रूस** और **बेलारूस** की सीमाओं के निकट स्थित उसके ठिकानों तक नहीं पहुंचती हैं।

- **Poland** has been considering joining the **NATO Pipeline System (NPS)** for many years, and on **Friday**, the **Defence Ministry** and national pipeline operator **PERN** unveiled a **€4.7-billion** plan to do so.  
**पोलैंड** कई वर्षों से **नाटो पाइपलाइन सिस्टम (NPS)** में शामिल होने पर विचार कर रहा था, और **शुक्रवार** को **रक्षा मंत्रालय** और राष्ट्रीय पाइपलाइन ऑपरेटर **PERN** ने **€4.7 बिलियन** की योजना की घोषणा की।
- "This is one of the **largest investments** in the **security of the Polish state** in the last **30 years**," **Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk** told reporters at the signing ceremony.  
"यह पिछले **30 वर्षों** में **पोलैंड राज्य की सुरक्षा** में की गई **सबसे बड़ी निवेशों में से एक** है," **उप रक्षा मंत्री सेज़री टोम्चिक** ने हस्ताक्षर समारोह में पत्रकारों से कहा।
- **Warsaw**, the Minister said, plans to build a **300-km pipeline** from **Germany** to its **military base in Bydgoszcz**, in north-central Poland and home to **NATO's joint force training centre** and several support units.  
मंत्री ने कहा कि **वारसॉ** की योजना **जर्मनी** से अपने **मध्य-उत्तरी पोलैंड** स्थित **बिडगोश्च सैन्य अड्डे** तक **300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन** बनाने की है, जो **नाटो के संयुक्त बल प्रशिक्षण केंद्र** और कई सहायक इकाइयों का मुख्यालय है।
- The alliance has helped fund the studies underlying the planning of the extension, but **Poland** and **PERN** will build and operate their section of the project once all **32 allies** give the go-ahead.  
गठबंधन ने विस्तार की योजना के तहत किए गए अध्ययन के लिए धन उपलब्ध कराया है, लेकिन सभी **32 सहयोगियों** की मंजूरी मिलने के बाद **पोलैंड** और **PERN** अपनी परियोजना के हिस्से का निर्माण और संचालन करेंगे।
- **Poland** is **NATO's leading military spender** in terms of the proportion of **GDP** assigned to **military and security programmes** and a **staunch ally** of neighbouring **Ukraine**, which suffered an **all-out Russian invasion** in **February 2022**.  
**पोलैंड नाटो का अग्रणी सैन्य खर्चकर्ता** है, जो अपने **जीडीपी** का बड़ा हिस्सा **सैन्य और सुरक्षा कार्यक्रमों** में खर्च करता है, और यह पड़ोसी **यूक्रेन** का **दृढ़ सहयोगी** है, जिसने **फरवरी 2022** में **रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण** का सामना किया था।



# As aid dwindles, WFP warns of 'catastrophic conditions' in Somalia

GS II: Africa

**Agence France-Presse**

NAIROBI

Millions of people in Somalia face worsening hunger as major cuts to donor aid leave the World Food Programme with a critical funding shortfall, the UN agency warned on Friday.

The Horn of Africa nation is among the most vulnerable to climate change, according to the United Nations, and in the last five years has experienced both the worst drought in four decades and once-in-a-century flooding.

In November, 7.5 lakh people – more than two thirds of the current number – will be cut off from the WFP emergency food programme.

That could "tip those worst affected into catastrophic conditions," the agency said.

"We are seeing a dangerous rise in emergency levels of hunger, and our ability to respond is shrinking by the day," said Ross Smith, WFP's director of emergency preparedness and response, in a statement.

The WFP leads the largest humanitarian operation in Somalia and supports more than 90% of the country's food security response.

"The current level of response is far below what is required to meet the growing needs," Smith said.

Government data released in August show that 4.4 million people are facing acute food insecurity in the conflict-ravaged nation.

With about 1.7 million children under five already acutely malnourished – including 4.66 lakh in critical condition – the WFP said that only 1.8 lakh are currently receiving its nutritional treatment, a number that could fall even further.

## WFP emergency food programme.

नवंबर में, 7.5 लाख लोग — वर्तमान संख्या के दो-तिहाई से अधिक — WFP आपातकालीन खाद्य कार्यक्रम से बाहर हो जाएंगे।

- That could "tip those worst affected into **catastrophic conditions**," the agency said. एजेंसी ने कहा कि इससे सबसे अधिक प्रभावित लोगों को **आपातकालीन परिस्थितियों** में धकेल सकता है।
- "We are seeing a dangerous rise in **emergency levels of hunger**, and our ability to respond is shrinking by the day," said **Ross Smith**, WFP's director of **emergency preparedness and response**, in a statement.  
"हम आपातकालीन स्तर की **भुखमरी** में खतरनाक वृद्धि देख रहे हैं, और हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता दिन-ब-दिन घट रही है," **Ross Smith**, WFP के **आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया निदेशक** ने एक बयान में कहा।
- The WFP leads the largest **humanitarian operation** in **Somalia** and supports more than 90% of the country's **food security response**.

WFP **सोमालिया** में सबसे बड़े **मानवतावादी अभियान** का नेतृत्व करता है और देश की **खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रिया** का 90% से अधिक समर्थन करता है।

## As aid dwindles, WFP warns of 'catastrophic conditions' in Somalia

जैसे-जैसे सहायता घटती है, WFP सोमालिया में 'आपातकालीन परिस्थितियों' की चेतावनी देता है

- Millions of people in **Somalia** face worsening **hunger** as major cuts to **donor aid** leave the **World Food Programme** with a critical **funding shortfall**, the **UN agency** warned on Friday.

सोमालिया में लाखों लोग बढ़ती **भुखमरी** का सामना कर रहे हैं क्योंकि प्रमुख **दानदाता सहायता** में कटौती के कारण **विश्व खाद्य कार्यक्रम** के पास महत्वपूर्ण **फंडिंग की कमी** हो गई है, **संयुक्त राष्ट्र एजेंसी** ने शुक्रवार को चेतावनी दी।

- The **Horn of Africa** nation is among the most vulnerable to **climate change**, according to the **United Nations**, and in the last five years has experienced both the worst **drought** in four decades and once-in-a-century **flooding**.

**संयुक्त राष्ट्र** के अनुसार, **हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका** राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवेदनशील देशों में से एक है, और पिछले पांच वर्षों में उसने चार दशकों की सबसे खराब **सूखा** और सदी में एक बार आने वाली **बाढ़** का अनुभव किया है।



Data released in August show that 4.4 million people are facing acute food insecurity in the conflict-hit nation. AFP

- In **November**, 7.5 lakh people — more than two-thirds of the current number — will be cut off from the



- “The current level of response is far below what is required to meet the growing needs,” Smith said.  
Smith ने कहा, “वर्तमान प्रतिक्रिया का स्तर बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्तर से बहुत नीचे है।”
- Government data released in **August** show that 4.4 million people are facing **acute food insecurity** in the **conflict-ravaged nation**.  
सरकार के **अगस्त** में जारी किए गए आंकड़े दिखाते हैं कि 4.4 मिलियन लोग **तीव्र खाद्य असुरक्षा** का सामना कर रहे हैं, जो **संघर्ष-ग्रस्त राष्ट्र** है।
- With about 1.7 million **children under five** already **acutely malnourished** — including 4.66 lakh in **critical condition** — the WFP said that only 1.8 lakh are currently receiving its **nutritional treatment**, a number that could fall even further.  
लगभग 1.7 मिलियन **पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे** पहले से ही **तीव्र कुपोषित** हैं — जिसमें 4.66 लाख **गंभीर स्थिति** में हैं — WFP ने कहा कि केवल 1.8 लाख ही वर्तमान में इसका **पोषण उपचार** प्राप्त कर रहे हैं, जो संख्या और भी कम हो सकती है।

## GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, & IS

### TOPICS COVERED 04\_10\_2025

1. **Nations must prepare to deal with stablecoins: Sitharaman**  
राष्ट्रों को स्टेबलकॉइन से निपटने के लिए तैयार रहना होगा: सीतारमण
2. **Two dead, over 100 injured during Banni festival in Andhra**  
आंध्र में बन्नी महोत्सव के दौरान दो मृत, 100 से अधिक घायल
3. **Pakistan lost several jets in Operation Sindoor: IAF chief**  
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कई जेट गंवाए: वायुसेना प्रमुख
4. **Domestic vitality**  
घरेलू जीवंतता
5. **This clean energy rise needs climate finance expansion**  
स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि को जलवायु वित्त विस्तार की आवश्यकता है

Safari surge: Tourists at the Tadoba Andhari Tiger Reserve in Maharashtra on Friday. The park in Chandrapur district reopened on



## Nature beckons



GS III: Environment

**Safari surge:** Tourists at the Tadoba Andhari Tiger Reserve in Maharashtra on Friday. The park in Chandrapur district reopened on October 1 after a gap of three months. More than 90% of safari slots are booked for the next three months. K.R. DEEPAK

October 1 after a gap of three months. More than 90% of safari slots are booked for the next three months

PATRIOTIC



# Nations must prepare to deal with stablecoins: Sitharaman

Innovations in cryptocurrency are transforming landscape of money and capital flows, and they may force nations to adapt to new monetary architectures or risk exclusion, says Finance Minister; India's economic leverage is evolving, Minister adds

**GS III: Block Chain**

**T.C.A. Sharad Raghavan**

NEW DELHI

**H**inting at a possible shift in India's cryptocurrency policy, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday said countries would have to "prepare to engage" with stablecoins whether they welcome the change or not.

"Innovations like stablecoins are transforming the landscape of money and capital flows," Ms. Sitharaman said in her inaugural address at the Kautilya Economic Conclave here.

**Scale of transformation**  
"These shifts may force nations to make binary choices: adapt to new monetary architectures or risk exclusion," she said.

## What is a stablecoin?

A stablecoin is a crypto asset that aims to maintain a stable value relative to a specified asset, or a pool of assets

- These assets could be a monetary unit of account such as the dollar or euro, a currency basket, a commodity such as gold, or unbacked crypto assets

- This stability can also be achieved only if a centralised institution is in charge of issuing (minting) and redeeming (burning) these crypto assets



SOURCE: IMF

"Such developments underscore the scale of the transformation under way. They also remind us that no nation can insulate itself from systemic change. Whether we welcome these shifts or not, we must prepare to engage with them."

Stablecoins are a type of cryptocurrency that at-

tempt to maintain stable prices as they are pegged to an underlying asset, such as a basket of currencies or precious metals.

The remarks come at a time when the Finance Ministry and the Reserve Bank of India (RBI) have both voiced their reservations about private cryptocurrencies, also referred to

as virtual digital assets.

India has not legalised these products in terms of regulation, but it does tax transactions that involve them.

The RBI, on the other hand, has lobbied hard to ban virtual digital assets outright, while simultaneously launching pilot projects of its own Central Bank Digital Currency (CBDC).

### Legal backing

CBDCs are cryptocurrencies issued by central banks and have the same legal backing as official currency.

The Finance Minister said India's capacity to absorb external shocks was strong and that its economic leverage was evolving. "Wars and strategic rival-

ries are redrawing the boundaries of cooperation and conflict," Ms. Sitharaman said.

"Alliances that once appeared solid are being tested, and new coalitions are emerging. For India, these dynamics highlight both vulnerability and resilience."

However, despite this reliance, she also cautioned that there was no time for complacency.

"Just as eternal vigilance is the price of liberty, eternal performance is the price of strategic independence," she said.

"There is no room for complacency or self-congratulation beyond a quiet confidence in our abilities to take the right decisions and execute them," the Finance Minister added.

## Nations must prepare to deal with stablecoins: Sitharaman

### राष्ट्रों को स्टेबलकॉइन से निपटने के लिए तैयार रहना होगा: सीतारमण

- Innovations in **cryptocurrency** are transforming landscape of money and capital flows, and they may force nations to adapt to new monetary architectures or risk exclusion, says **Finance Minister; India's** economic leverage is evolving, Minister adds  
**क्रिप्टोकॉइन्स** में नवाचार जैसे और पूंजी प्रवाह के परिदृश्य को बदल रहे हैं, और वे राष्ट्रों को नई मौद्रिक संरचनाओं को अपनाने या बहिष्कार के जोखिम में डाल सकते हैं, ऐसा **वित्त मंत्री** ने कहा; **भारत** की आर्थिक शक्ति विकसित हो रही है, मंत्री ने जोड़ा
- Hinting at a possible shift in **India's cryptocurrency policy**, Union **Finance Minister Nirmala Sitharaman** on Friday said countries would have to "prepare to engage" with **stablecoins** whether they welcome the change or not.  
**भारत की क्रिप्टोकॉइन्स नीति** में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए, केंद्रीय **वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण** ने शुक्रवार को कहा कि देशों को **स्टेबलकॉइन** के साथ "संपर्क के लिए तैयार" होना होगा, चाहे वे इस बदलाव का स्वागत करें या नहीं।
- "Innovations like **stablecoins** are transforming the landscape of money and capital flows," Ms. **Sitharaman** said in her inaugural address at the **Kautilya Economic Conclave** here.  
"स्टेबलकॉइन्स जैसे नवाचार जैसे और पूंजी प्रवाह के परिदृश्य को बदल रहे हैं," श्रीमती **सीतारमण** ने यहां **कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन** में अपने उद्घाटन भाषण में कहा।



## Scale of transformation

### परिवर्तन का पैमाना

- “These shifts may force nations to make binary choices: adapt to new monetary architectures or risk exclusion,” she said.  
“ये बदलाव राष्ट्रों को द्विआधारी विकल्प बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं: नई मौद्रिक संरचनाओं को अपनाना या बहिष्कार के जोखिम में पड़ना,” उन्होंने कहा।
- “Such developments underscore the scale of the transformation under way. They also remind us that no nation can insulate itself from systemic change. Whether we welcome these shifts or not, we must prepare to engage with them.”  
“ऐसे विकास जारी परिवर्तन के पैमाने को रेखांकित करते हैं। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कोई भी राष्ट्र खुद को प्रणालीगत बदलाव से अलग नहीं रख सकता। चाहे हम इन बदलावों का स्वागत करें या न करें, हमें उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार होना चाहिए।”
- **Stablecoins** are a type of **cryptocurrency** that attempt to maintain stable prices as they are pegged to an underlying asset, such as a basket of currencies or precious metals.  
**स्टेबलकॉइन** एक प्रकार की **क्रिप्टोकॉरेंसी** हैं जो स्थिर कीमतें बनाए रखने का प्रयास करती हैं क्योंकि वे किसी अंतर्निहित संपत्ति से जुड़ी होती हैं, जैसे मुद्राओं की टोकरी या कीमती धातुएं।
- The remarks come at a time when the **Finance Ministry** and the **Reserve Bank of India (RBI)** have both voiced their reservations about private cryptocurrencies, also referred to as virtual digital assets.  
यह टिप्पणी उस समय आई है जब **वित्त मंत्रालय** और **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** दोनों ने निजी क्रिप्टोकॉरेंसी, जिन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी कहा जाता है, पर अपनी आपत्तियां जताई हैं।
- **India** has not legalised these products in terms of regulation, but it does tax transactions that involve them.  
**भारत** ने इन उत्पादों को विनियमन के संदर्भ में कानूनी मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह उनसे संबंधित लेन-देन पर कर लगाता है।
- The **RBI**, on the other hand, has lobbied hard to ban virtual digital assets outright, while simultaneously launching pilot projects of its own **Central Bank Digital Currency (CBDC)**.  
दूसरी ओर, **RBI** ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ा दबाव बनाया है, जबकि साथ ही अपनी **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)** की पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं।

## Legal backing

### कानूनी समर्थन

- **CBDCs** are cryptocurrencies issued by central banks and have the same legal backing as official currency.  
**CBDC** केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली क्रिप्टोकॉरेंसी है और इसे आधिकारिक मुद्रा के समान कानूनी समर्थन प्राप्त है।
- The **Finance Minister** said **India's** capacity to absorb external shocks was strong and that its economic leverage was evolving.  
**वित्त मंत्री** ने कहा कि **भारत** की बाहरी झटकों को सहन करने की क्षमता मजबूत है और इसकी आर्थिक शक्ति विकसित हो रही है।
- “Wars and strategic rivalries are redrawing the boundaries of cooperation and conflict,” Ms. **Sitharaman** said.  
“युद्ध और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहयोग और संघर्ष की सीमाओं को फिर से खींच रहे हैं,” श्रीमती **सीतारमण** ने कहा।
- “Alliances that once appeared solid are being tested, and new coalitions are emerging. For **India**, these dynamics highlight both vulnerability and resilience.”  
“वो गठबंधन जो कभी ठोस प्रतीत होते थे, अब परखे जा रहे हैं, और नए गठबंधन उभर रहे हैं। **भारत** के लिए, ये गतिशीलताएं असुरक्षा और लचीलापन दोनों को उजागर करती हैं।”
- However, despite this reliance, she also cautioned that there was no time for complacency.  
हालांकि, इस भरोसे के बावजूद, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आत्मसंतोष का कोई समय नहीं है।
- “Just as eternal vigilance is the price of liberty, eternal performance is the price of strategic independence,” she said.



“जिस तरह अनन्त सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है, उसी तरह अनन्त प्रदर्शन रणनीतिक स्वतंत्रता की कीमत है,” उन्होंने कहा।

- “There is no room for complacency or self-congratulation beyond a quiet confidence in our abilities to take the right decisions and execute them,” the **Finance Minister** added.  
“सही निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की हमारी क्षमताओं में शांत विश्वास से आगे आत्मसंतोष या आत्म-प्रशंसा की कोई गुंजाइश नहीं है,” **वित्त मंत्री** ने जोड़ा।

## Two dead, over 100 injured during Banni festival in Andhra

GS III: A&C

**K. Umashanker**  
KURNOOL

Two people were killed and more than a hundred were injured at the annual Banni festival at Devaragattu in Holagunda mandal of Kurnool district of Andhra Pradesh on Thursday night. Over 2 lakh people from across Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka gathered to witness the traditional symbolic stick fight rituals, held annually on Vijayadashami.

The incident occurred when a symbolic ritual escalated to violence.

The police said at least five persons among the in-

jured were in a critical condition and were admitted to the Government General Hospital at Adoni.

The traditional wedding rituals of Mallamma and Malleshwara Swamy, the presiding deities of the hill shrine, began late in the evening, followed by the procession of the idols.

As the procession moved through the village, two rival groups ‘armed with thick bamboo sticks and pestles’ clashed violently while attempting to seize the idols.

Kurnool District Collector A. Siri and Superintendent of Police Vikrant Patil rushed to the spot.

**Two dead, over 100 injured during Banni festival in Andhra**  
**आंध्र में बन्नी महोत्सव के दौरान दो मृत, 100 से अधिक घायल**



**Unique tradition:** Devotees engage in stick fights as part of the annual Banni festival in Kurnool district. U. SUBRAMANYAM

- Two people were killed and more than a hundred were injured at the annual **Banni festival** at Devaragattu in Holagunda mandal of Kurnool district of Andhra Pradesh on Thursday night.

गुरुवार रात आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के होलगुंडा मंडल के देवरगट्टू में वार्षिक बन्नी महोत्सव में दो लोगों की मौत हो गई और सौ से

अधिक लोग घायल हो गए।

- Over **2 lakh people** from across **Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka** gathered to witness the traditional symbolic stick fight rituals, held annually on **Vijayadashami**.  
**आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक** से आए **2 लाख से अधिक लोग** पारंपरिक प्रतीकात्मक लाठी युद्ध की रस्म देखने के लिए इकट्ठा हुए, जो हर साल **विजयादशमी** पर आयोजित की जाती है।
- The incident occurred when a symbolic ritual escalated to violence.  
यह घटना तब हुई जब एक प्रतीकात्मक रस्म हिंसा में बदल गई।
- The police said at least five persons among the injured were in a **critical condition** and were admitted to the **Government General Hospital at Adoni**.  
पुलिस ने कहा कि घायलों में से कम से कम पाँच लोग **गंभीर हालत** में हैं और उन्हें **आडोनी के सरकारी सामान्य अस्पताल** में भर्ती कराया गया है।
- The traditional **wedding rituals** of **Mallamma** and **Malleshwara Swamy**, the presiding deities of the hill shrine, began late in the evening, followed by the **procession of the idols**.  
पर्वत मंदिर के presiding देवता **मल्लम्मा** और **मल्लेश्वर स्वामी** की पारंपरिक **विवाह रस्में** देर शाम शुरू हुईं, जिसके बाद **मूर्तियों की शोभायात्रा** निकाली गई।
- As the procession moved through the village, two rival groups ‘armed with thick bamboo sticks and pestles’ clashed violently while attempting to seize the idols.  
जब शोभायात्रा गाँव से होकर गुज़री, तो दो प्रतिद्वंद्वी समूह ‘मोटी बाँस की लाठियों और मुसलों से लैस’ होकर मूर्तियों को कब्जे में लेने की कोशिश में हिंसक रूप से भिड़ गए।



- Kurnool District Collector A. Siri and Superintendent of Police Vikrant Patil rushed to the spot.  
कुरनूल जिला कलेक्टर ए. सिरी और पुलिस अधीक्षक विक्रान्त पाटिल तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे।

# Pakistan lost several jets in Operation Sindoor: IAF chief

Air chief says India inflicted extensive damage on radars, command-and-control centres, hangars, and China-made JF-17 jets in Pakistan; he dismisses Pak. PM's claim that India suffered huge losses

**GS III: Defence**  
**Saurabh Trivedi**

NEW DELHI

**A**ir Chief Marshal Amar Preet Singh on Friday said that India inflicted extensive damage on Pakistan's air power, including U.S.-made F-16s and Chinese JF-17 fighter jets, during Operation Sindoor.

Speaking at the 93<sup>rd</sup> Air Force Day celebrations at the Air Force Auditorium in Delhi, the IAF chief presented a detailed account of the strikes, while outlining the Air Force's future plans under Roadmap 2047.

## Strategic strike

"From various Intelligence reports, we have gathered that radars were damaged at four locations, command-and-control centres destroyed at two, and runways at two airfields were hit. Three hangars were also damaged across different stations. Within these hangars and on the tarmac, we have clear evidence of one C-130 class



**Battle brief:** Air Chief Marshal Amar Preet Singh addressing a press conference in New Delhi on Friday. SUSHIL KUMAR VERMA

aircraft destroyed, along with four to five F-16 fighter jets that were based at these stations," the Air Chief Marshal said.

He said evidence indicated the loss of one long-range platform – likely an AEW&C or SIGINT aircraft – struck at a distance of more than 300 km, along with "five high-tech fighters between the F-16 and JF-17 class".

Dismissing Pakistan's claims of Indian losses, Mr. Singh called them "*manohar kahaniyan* (fascinating tales)".

"If they think they downed our 15 jets, I hope they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again," he said.

Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif had recently told the United Nations General Assembly that seven Indian jets were downed, a claim the IAF has firmly rejected.

On the future plans, the Air chief said all three ser-

vices have begun work on the Sudarshan Chakra air defence system, announced by Prime Minister Narendra Modi on August 15.

The system is aimed at shielding critical civilian and military infrastructure while providing decisive responses to enemy threats.

## Future of warfare

Responding to Tesla CEO Elon Musk's remarks that drones, not manned aircraft, represent the future of warfare, Mr. Singh countered, "Manned platforms will continue to play a crucial role in combat operations. Fighter jets will remain relevant in the years to come. Elon Musk is a businessman."

On the Tejas Mk1A, the IAF chief expressed enthusiasm for its induction, saying, "Hungry mouths are ready, waiting for the food now." He emphasised that the aircraft was expected to meet all performance parameters outlined in earlier requirements.

## Pakistan lost several jets in Operation Sindoor: IAF chief ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कई जेट गंवाए: वायुसेना प्रमुख

- Air chief says India inflicted extensive damage on radars, command-and-control centres, hangars, and China-made JF-17 jets in Pakistan; he dismisses Pak. PM's claim that India suffered huge losses.  
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने रडार, कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर्स, हैंगर और चीन निर्मित JF-17 जेट पर



पाकिस्तान में व्यापक नुकसान पहुँचाया; उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावे को खारिज कर दिया कि भारत को भारी नुकसान हुआ।

- Air Chief Marshal **Amar Preet Singh** on Friday said that India inflicted extensive damage on Pakistan's air power, including **U.S.-made F-16s** and **Chinese JF-17 fighter jets**, during **Operation Sindoor**.

वायुसेना प्रमुख **अमर प्रीत सिंह** ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान पाकिस्तान की वायु शक्ति को भारी नुकसान पहुँचाया, जिसमें **अमेरिकी एफ-16** और **चीनी जेएफ-17 लड़ाकू विमान** शामिल हैं।

- Speaking at the **93rd Air Force Day** celebrations at the Air Force Auditorium in **Delhi**, the IAF chief presented a detailed account of the strikes, while outlining the Air Force's future plans under **Roadmap 2047**.

**दिल्ली** के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में **93वें एयरफोर्स डे** समारोह में बोलते हुए, वायुसेना प्रमुख ने हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया और **रोडमैप 2047** के तहत वायुसेना की भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया।

## Strategic strike रणनीतिक हमला

- "From various Intelligence reports, we have gathered that **radars were damaged at four locations, command-and-control centres destroyed at two, and runways at two airfields were hit. Three hangars** were also damaged across different stations. Within these hangars and on the tarmac, we have clear evidence of one **C-130 class aircraft destroyed**, along with **four to five F-16 fighter jets** that were based at these stations," the Air Chief Marshal said.

"विभिन्न खुफिया रिपोर्टों से हमें पता चला है कि **चार स्थानों पर रडार क्षतिग्रस्त हुए, दो स्थानों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए और दो हवाई अड्डों के रनवे पर हमला हुआ। तीन हैंगर भी विभिन्न स्टेशनों पर क्षतिग्रस्त हुए। इन हैंगरों और टैक्सियों पर हमारे पास एक सी-130 श्रेणी के विमान के नष्ट होने और चार से पाँच एफ-16 लड़ाकू विमानों के सबूत हैं,**" वायुसेना प्रमुख ने कहा।

- He said evidence indicated the loss of one long-range platform — likely an **AEW&C or SIGINT aircraft** — struck at a distance of more than **300 km**, along with "five high-tech fighters between the **F-16 and JF-17 class**".

उन्होंने कहा कि सबूत यह दर्शाते हैं कि एक लंबी दूरी का विमान — संभवतः **AEW&C या SIGINT विमान** — **300 किमी से अधिक दूरी** पर नष्ट हुआ, साथ ही **"एफ-16 और जेएफ-17 वर्ग के बीच पाँच उच्च-तकनीकी लड़ाकू विमान"** भी नष्ट हुए।

- Dismissing Pakistan's claims of Indian losses, Mr. Singh called them "**manohar kahaniyan (fascinating tales)**". "If they think they downed our **15 jets**, I hope they are convinced about it and they will cater for **15 less aircraft** in my inventory when they come to fight again," he said.

पाकिस्तान के भारतीय नुकसान के दावों को खारिज करते हुए, श्री सिंह ने उन्हें **"मनोरंजन की कहानियाँ"** कहा। "यदि वे सोचते हैं कि उन्होंने हमारे **15 जेट** गिरा दिए, तो मैं आशा करता हूँ कि वे इसके बारे में आश्चर्य में आश्चर्य में हैं और जब वे दोबारा लड़ने आएंगे तो वे मेरी सूची में **15 कम विमान** मान लेंगे," उन्होंने कहा।

- Pakistani Prime Minister **Shehbaz Sharif** had recently told the **United Nations General Assembly** that **seven Indian jets** were downed, a claim the **IAF has firmly rejected**.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री **शहबाज शरीफ** ने हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** को बताया था कि **सात भारतीय जेट** मार गिराए गए, जिसे **भारतीय वायुसेना ने सख्ती से खारिज कर दिया**।

- On the future plans, the Air chief said all three services have begun work on the **Sudarshan Chakra air defence system**, announced by Prime Minister **Narendra Modi** on **August 15**.

भविष्य की योजनाओं पर, वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सभी तीनों सेनाओं ने **15 अगस्त** को प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** द्वारा घोषित **सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली** पर काम शुरू कर दिया है।

- The system is aimed at shielding critical **civilian and military infrastructure** while providing decisive responses to **enemy threats**.

इस प्रणाली का उद्देश्य महत्वपूर्ण **नागरिक और सैन्य ढांचे** की रक्षा करना है, साथ ही **दुश्मन के खतरों** के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

## Future of warfare भविष्य का युद्ध



- Responding to **Tesla CEO Elon Musk's** remarks that drones, not manned aircraft, represent the future of warfare, Mr. Singh countered, "Manned platforms will continue to play a crucial role in combat operations. Fighter jets will remain relevant in the years to come. **Elon Musk is a businessman.**"

टेस्ला सीईओ एलन मस्क की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि भविष्य का युद्ध मानव रहित विमानों (ड्रोन) से होगा, श्री सिंह ने पलटवार किया, "मानव संचालित प्लेटफॉर्म युद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। आने वाले वर्षों में लड़ाकू विमान प्रासंगिक बने रहेंगे। **एलन मस्क एक व्यापारी हैं।**"

- On the **Tejas Mk1A**, the IAF chief expressed enthusiasm for its induction, saying, "Hungry mouths are ready, waiting for the food now." He emphasised that the aircraft was expected to meet all **performance parameters** outlined in earlier requirements.

तेजस Mk1A पर, वायुसेना प्रमुख ने इसके शामिल होने को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा, "भूखे मुँह अब तैयार हैं, भोजन का इंतजार कर रहे हैं।" उन्होंने जोर दिया कि यह विमान पहले की आवश्यकताओं में बताए गए सभी **प्रदर्शन मानकों** को पूरा करेगा।

PATRIOTIC IAS



## Domestic vitality

### Domestic firms show more faith in India than foreign investors

#### GS III: Investment

**T**he latest data on investment announcements in the country paint a mixed picture, with varying policy implications. New project announcements by the private sector overall rose to nearly a 15-month high in the first half of this financial year to ₹9.9 lakh crore. Such investments have historically been driven by Indian firms, but that concentration has intensified in the last few years. While Indian firms accounted for 77% of all private sector announcements in 2018-19, that share was 94% in the first half of the current financial year. Taken together, these data points underscore a diametrically opposite outlook on the Indian economy held by domestic and foreign firms. Domestic firms seem increasingly optimistic. It remains to be seen how many of these announcements fructify, but the data show that the value of projects actually completed by Indian firms was also at a near 15-month high so far this fiscal. This should come as a relief to the government, which has been pushing the private sector to invest more. The data also show that most of these new investments are to be in the manufacturing sector – another strong positive for the economy. A large part of these new investments was announced before the GST rate cuts were first made public on August 15, implying the private sector's confidence goes deeper than an expectation of a temporary demand boost. If the investments do come through, that will leave the government with more fiscal room to address developmental and defence issues, both of which need its attention.

Foreign firms, on the other hand, do not seem quite as convinced by the India story. The value of project announcements by foreign companies fell to ₹0.6 lakh crore in the first half of FY26, marking the third consecutive year of decline during this period, and also a five-year low. Several global factors have certainly dampened investor sentiment ever since the COVID-19 pandemic, but the fact remains that global investment outflows nevertheless increased 11% in 2024 and 3% in 2023. While the latest tariff friction with the U.S. would have shaken some confidence in India as an investment destination this year, the government needs to figure out why foreign companies were looking elsewhere even before. The data also reveal that fresh announcements by the government stood at ₹1.5 lakh crore during the period under review, down 71% over the same period last year. This is in line with the Centre's warnings that it will not be growing its capex as fast as before. However, with the government and foreign companies pulling back, the pressure on Indian firms increases. Simultaneously, the urgency to keep this momentum going through ease of doing business reforms also sharpens.

## Domestic vitality घरेलू जीवंतता

- Domestic firms show more faith in India than foreign investors  
घरेलू कंपनियाँ भारत पर विदेशी निवेशकों की तुलना में अधिक विश्वास दिखाती हैं

### Investment Announcements in India भारत में निवेश घोषणाएँ

- The latest data on **investment announcements** in the country paint a mixed picture, with varying **policy implications**.  
देश में **निवेश घोषणाओं** के नवीनतम आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं, जिनके अलग-अलग **नीतिगत प्रभाव** हैं।

- New project announcements by the **private sector** overall rose to **nearly a 15-month high in the first half of this financial year to ₹9.9 lakh crore**.

**निजी क्षेत्र** द्वारा नई परियोजना घोषणाएँ इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में **₹9.9 लाख करोड़** तक पहुँच गई, जो लगभग **15 महीने के उच्चतम स्तर** पर हैं।

- **Such investments have historically been driven by Indian firms, but that concentration has intensified in the last few years.**

ऐसे निवेश ऐतिहासिक रूप से **भारतीय कंपनियों** द्वारा संचालित रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह एकाग्रता और अधिक बढ़ गई है।

- While **Indian firms** accounted for **77%** of all private sector announcements in **2018-19**, that share was **94%** in the first half of the current financial year.

जहाँ **2018-19** में सभी निजी क्षेत्र की घोषणाओं में **भारतीय कंपनियों** का हिस्सा **77%** था, वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में यह हिस्सा **94%** रहा।

- Taken together, these data points underscore a **diametrically opposite outlook** on the Indian economy held by domestic and foreign firms.

समग्र रूप से देखें तो ये आंकड़े घरेलू और विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर रखे गए **एकदम विपरीत दृष्टिकोण** को रेखांकित करते हैं।

- Domestic firms seem increasingly **optimistic**.

घरेलू कंपनियाँ तेजी से **आशावादी** दिखाई देती हैं।

- It remains to be seen how many of these announcements **fructify**, but the data show that the value of projects actually completed by Indian firms was also at a near **15-month high** so far this fiscal.

यह देखना बाकी है कि इनमें से कितनी घोषणाएँ वास्तव में **साकार** होती हैं, लेकिन आँकड़े बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय कंपनियों द्वारा वास्तव में पूर्ण की गई परियोजनाओं का मूल्य भी लगभग **15 महीने के उच्च स्तर** पर था।

- This should come as a **relief** to the government, which has been pushing the private sector to invest more.

यह सरकार के लिए एक **राहत** होनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र को अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है।

- The **data also show that most of these new investments are to be in the manufacturing sector** — another strong positive for the economy.

आँकड़े यह भी बताते हैं कि इनमें से अधिकांश नए निवेश **विनिर्माण क्षेत्र** में होंगे — जो अर्थव्यवस्था के लिए एक और मजबूत सकारात्मक संकेत है।



- A large part of these new investments was announced **before the GST rate cuts** were first made public on **August 15**, implying the private sector's confidence goes deeper than an expectation of a temporary demand boost.  
इन नए निवेशों का एक बड़ा हिस्सा **GST दरों में कटौती** को **15 अगस्त** को सार्वजनिक किए जाने से पहले ही घोषित किया गया था, जिसका मतलब है कि निजी क्षेत्र का विश्वास केवल अस्थायी माँग वृद्धि की अपेक्षा से गहरा है।
- If the investments do come through, that will leave the government with more **fiscal room** to address **developmental and defence issues**, both of which need its attention.  
यदि ये निवेश वास्तव में आते हैं, तो यह सरकार को **विकासोत्तमक और रक्षा मुद्दों** (दोनों जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है) को संबोधित करने के लिए अधिक **राजकोषीय गुंजाइश** देगा।
- **Foreign firms**, on the other hand, do not seem quite as convinced by the **India story**.  
दूसरी ओर, **विदेशी कंपनियाँ भारत की कहानी** से उतनी आश्चस्त नहीं लगतीं।
- The **value of project announcements by foreign companies fell to ₹0.6 lakh crore in the first half of FY26**, marking the **third consecutive year of decline** during this period, and also a **five-year low**.  
विदेशी कंपनियों द्वारा परियोजना घोषणाओं का मूल्य **FY26** की पहली छमाही में घटकर **₹0.6 लाख करोड़** रह गया, जो इस अवधि में  **लगातार तीसरे वर्ष की गिरावट** और साथ ही **पाँच साल का न्यूनतम स्तर** है।
- Several **global factors** have certainly dampened investor sentiment ever since the **COVID-19 pandemic**, but the fact remains that **global investment outflows** nevertheless increased **11% in 2024 and 3% in 2023**.  
कई **वैश्विक कारकों** ने निश्चित रूप से **COVID-19 महामारी** के बाद से निवेशक भावना को कमजोर किया है, लेकिन तथ्य यह है कि **वैश्विक निवेश प्रवाह** फिर भी **2024 में 11%** और **2023 में 3%** बढ़ा।
- While the latest **tariff friction** with the **U.S.** would have shaken some confidence in India as an investment destination this year, the government needs to figure out why foreign companies were looking elsewhere even before.  
जबकि इस वर्ष **अमेरिका** के साथ हालिया **शुल्क टकराव** ने भारत को निवेश गंतव्य के रूप में कुछ विश्वास हिलाया होगा, सरकार को यह पता लगाना होगा कि विदेशी कंपनियाँ पहले से ही कहीं और क्यों देख रही थीं।
- The data also reveal that fresh announcements by the **government** stood at **₹1.5 lakh crore** during the period under review, down **71%** over the same period last year.  
आँकड़े यह भी बताते हैं कि समीक्षा की अवधि के दौरान **सरकार** द्वारा की गई नई घोषणाएँ **₹1.5 लाख करोड़** रहीं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में **71% कम** हैं।
- This is in line with the **Centre's warnings** that it will not be growing its **capex** as fast as before.  
यह **केंद्र की चेतावनियों** के अनुरूप है कि वह अपनी **पूँजीगत व्यय (capex)** को पहले जितनी तेजी से नहीं बढ़ाएगा।
- However, with the **government and foreign companies pulling back**, the pressure on **Indian firms** increases.  
हालाँकि, **सरकार और विदेशी कंपनियों के पीछे हटने** से, **भारतीय कंपनियों** पर दबाव बढ़ता है।
- Simultaneously, the urgency to keep this momentum going through **ease of doing business reforms** also sharpens.  
साथ ही, इस गति को बनाए रखने की तात्कालिकता **व्यवसाय करने में सुगमता सुधारों** के माध्यम से और भी तेज हो जाती है।



# This clean energy rise needs climate finance expansion

GS III: Environment

India's clean energy transition is gaining momentum. In 2024, India added 24.5 gigawatts (GW) of solar energy capacity, making it the third largest contributor globally after China and the United States, making it a key player in the global shift towards renewables.

The United Nations Secretary-General's 2025 Climate Report recognises India, alongside Brazil and China, as a leading developing country in scaling solar and wind energy. In 2023, the renewable energy sector employed over a million people, contributing to 5% of GDP growth. Of this, off-grid solar alone employed over 80,000 people in 2021. India's leadership in establishing the International Solar Alliance (ISA) is laudable.

## The critical gap

But this impressive momentum needs a consistent push. Beneath the headlines lies a critical gap – the financial scaffolding that is needed to sustain and scale this transition. Without a dramatic expansion of climate finance, India will struggle to meet its climate targets.

The economic case for clean energy has solid basis. According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), if India follows a 1.5°C-aligned pathway, it could achieve average annual GDP growth of 2.8% through 2050, more than double the G-20 average. Battery-integrated renewables, decentralised grids and green hydrogen technologies are all creating new opportunities for inclusive, future-ready growth. Yet, this momentum hinges on the missing piece of climate finance.

The size of India's climate finance gap is wide. Recent estimates indicate a requirement of \$1.5 trillion by 2030 to stay on a 1.5°C pathway, while the Ministry of Finance places the figure at over \$2.5 trillion by 2030 to meet national targets. This includes capital for expanding renewables, strengthening the electricity grid, deploying



**Flavia Lopes**

is Programme, United Nations Environment Programme (UNEP) India



**Balakrishna Pisupati**

is Head, United Nations Environment Programme (UNEP) India

Without this, India will struggle to meet its climate targets

battery storage, scaling up green hydrogen, and transitioning to sustainable transport and agriculture. The current flow of climate finance falls well short of this target.

By December 2024, India's cumulative aligned green, social, sustainability and sustainability-linked (GSS+) debt issuance had reached \$55.9 billion, representing a 186% increase since 2021, with green bonds accounting for 83% of total aligned issuance. The trajectory remains strong, with green bond investment in India crossing \$45 billion in 2025, and sustainable finance targets aiming for \$100 billion by 2030, indicating robust private sector engagement.

However, the challenge of expanding beyond large corporates remains valid. While the private sector was responsible for 84% of the total green bond issuance, access for micro, small, and medium enterprises, agri-tech innovators, and local infrastructure developers continues to need enhancement through concessional finance and risk-sharing mechanisms. India's successful solar energy auctions under the Solar Park Scheme have been cited as one initiative in support of attracting private financing. Similarly, India's issuance of sovereign green bonds and the success of Securities and Exchange Board of India (SEBI)-regulated social bonds have channelled private capital into climate action, education and health care.

## Changes to strategy

To unlock this gap in finance, India must diversify and deepen its climate finance strategy, starting with public finance. National and State governments can use Budget allocations and fiscal tools to attract private capital and de-risk green investments.

Blended finance can bridge this divide. While concessional finance and risk-sharing mechanisms are often referenced, there is a need

to examine how they work across sectors, scales and investor profiles. Credit enhancement instruments such as partial guarantees or subordinated debt can improve the risk-return profile of green projects, making them more attractive to private lenders. Similarly, performance or loan guarantees can unlock finance for mid-sized clean energy infrastructure in Tier II and III cities, where governance and delivery risks may deter investors.

Scaling such models will require unlocking domestic institutional capital, from pension funds, insurers and sovereign wealth funds. India, too, can unlock similar potential by enabling its institutional investors such as the Employees' Provident Fund Organisation or the Life Insurance Corporation, to allocate a portion of their portfolios to climate-aligned investments. This would require regulatory reforms such as clearer environmental, social, and governance investment guidelines, risk mitigation instruments and long-term green project pipelines.

## Tap carbon markets

Policy and institutional support are critical. Carbon markets offer another avenue. India's new Carbon Credit Trading Scheme could unlock new finance streams if it is transparent, well regulated and equitable. Equally urgent is financing for adaptation and loss and damage.

India must lead not just on clean energy but also on climate finance innovation, with visible, scalable breakthroughs. This can be through blockchain for tracking climate finance, Artificial Intelligence-driven risk assessment for green portfolios, or tailored blended finance models that reflect India's unique social, environmental and economic realities.

The views expressed are personal

## This clean energy rise needs climate finance expansion

## स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि को जलवायु वित्त विस्तार की आवश्यकता है

### India's Clean Energy Transition

### भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण

- India's clean energy transition is gaining momentum. भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण तेजी पकड़ रहा है।
- In 2024, India added **24.5 gigawatts (GW) of solar energy capacity**, making it the **third largest contributor globally** after China and the United States, making it a **key player** in the global shift towards renewables. 2024 में, भारत ने **24.5 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता** जोड़ी, जिससे यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर **तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** बन गया, और यह नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक दिशा में **एक प्रमुख खिलाड़ी** बन गया।
- The **United Nations Secretary-General's 2025 Climate Report** recognises India, alongside Brazil and China, as a **leading developing country in scaling solar and wind energy**. **संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 जलवायु रिपोर्ट** भारत को ब्राजील और चीन के साथ सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ाने में **अग्रणी विकासशील देश** के रूप में मान्यता देती है।
- In 2023, the **renewable energy sector employed over a million people**, contributing to **5% of GDP growth**. 2023 में, **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र** ने एक मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया, जो **GDP विकास में 5% का योगदान** था।
- Of this, **off-grid solar alone employed over 80,000 people in 2021**. इसमें, **ऑफ-ग्रिड सौर** ने अकेले 2021 में **80,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया**।



- India's leadership in establishing the **International Solar Alliance (ISA)** is laudable. इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना में भारत की नेतृत्व क्षमता सराहनीय है।

## The Critical Gap महत्वपूर्ण अंतर

- But this impressive momentum needs a **consistent push**. Beneath the headlines lies a critical gap — the **financial scaffolding** that is needed to sustain and scale this transition. लेकिन इस प्रभावशाली गति को सतत प्रयास की आवश्यकता है। सुर्खियों के पीछे एक महत्वपूर्ण अंतर है — यह **वित्तीय ढांचा** जो इस संक्रमण को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
- Without a dramatic expansion of **climate finance**, India will struggle to meet its climate targets. **जलवायु वित्त** के नाटकीय विस्तार के बिना, भारत के लिए अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल होगा।
- The economic case for clean energy has a **solid basis**. According to the **International Renewable Energy Agency (IRENA)**, if India follows a **1.5°C-aligned pathway**, it could achieve **average annual GDP growth of 2.8% through 2050**, more than double the G-20 average. स्वच्छ ऊर्जा के लिए आर्थिक मामला मजबूत आधार रखता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) के अनुसार, यदि भारत 1.5°C-निर्दिष्ट मार्ग का पालन करता है, तो यह 2050 तक औसत वार्षिक GDP विकास 2.8% प्राप्त कर सकता है, जो G20 औसत से दोगुना है।
- **Battery-integrated renewables, decentralised grids and green hydrogen technologies** are all creating new opportunities for **inclusive, future-ready growth**. बैटरी-इंटीग्रेटेड नवीकरणीय, विकेंद्रीकृत ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक सभी समावेशी, भविष्य-तैयार विकास के लिए नई अवसर पैदा कर रही हैं।
- Yet, this momentum hinges on the missing piece of **climate finance**. फिर भी, यह गति जलवायु वित्त के अभाव पर निर्भर करती है।
- The size of India's **climate finance gap** is wide. Recent estimates indicate a requirement of **\$1.5 trillion by 2030** to stay on a 1.5°C pathway, while the **Ministry of Finance** places the figure at over **\$2.5 trillion by 2030** to meet national targets. भारत के जलवायु वित्त अंतर का आकार व्यापक है। हालिया अनुमान बताते हैं कि 1.5°C मार्ग पर बने रहने के लिए 2030 तक \$1.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक \$2.5 ट्रिलियन से अधिक आंकता है।
- This includes capital for **expanding renewables, strengthening the electricity grid, deploying battery storage, scaling up green hydrogen, and transitioning to sustainable transport and agriculture**. इसमें शामिल है पूंजी नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, बिजली ग्रिड को मजबूत करना, बैटरी भंडारण तैनात करना, ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाना, और सतत परिवहन और कृषि में संक्रमण के लिए।
- The current flow of **climate finance falls well short** of this target. वर्तमान जलवायु वित्त प्रवाह इस लक्ष्य से काफी कम है।
- By **December 2024**, India's cumulative aligned **green, social, sustainability and sustainability-linked (GSS+) debt issuance** had reached **\$55.9 billion**, representing a **186% increase since 2021**, with **green bonds accounting for 83%** of total aligned issuance. दिसंबर 2024 तक, भारत की संचयी संरेखित ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड (GSS+) ऋण जारी \$55.9 बिलियन तक पहुँच गई थी, जो 2021 से 186% वृद्धि दर्शाती है, जिसमें कुल संरेखित जारी में ग्रीन बॉन्ड्स 83% हैं।
- The trajectory remains strong, with **green bond investment in India crossing \$45 billion in 2025**, and **sustainable finance targets aiming for \$100 billion by 2030**, indicating robust **private sector engagement**. रुझान मजबूत बना हुआ है, भारत में ग्रीन बॉन्ड निवेश 2025 में \$45 बिलियन पार कर गया, और सस्टेनेबल फाइनेंस लक्ष्यों का लक्ष्य 2030 तक \$100 बिलियन, जो मजबूत निजी क्षेत्र की भागीदारी को दर्शाता है।
- However, the challenge of expanding beyond **large corporations** remains valid. हालांकि, बड़ी कंपनियों से आगे विस्तार करने की चुनौती अभी भी प्रासंगिक है।



- While the private sector was responsible for **84% of the total green bond issuance**, access for **micro, small, and medium enterprises, agri-tech innovators, and local infrastructure developers** continues to need enhancement through **concessional finance and risk-sharing mechanisms**.  
जबकि निजी क्षेत्र कुल ग्रीन बॉन्ड जारी का 84% जिम्मेदार था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एग्री-टेक नवप्रवर्तकों, और स्थानीय अवसंरचना डेवलपर्स के लिए पहुँच में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जो सुविधाजनक वित्त और जोखिम-साझाकरण तंत्र के माध्यम से की जा सकती है।
- India's successful **solar energy auctions under the Solar Park Scheme** have been cited as one initiative in support of attracting **private financing**.  
भारत की सफल सौर ऊर्जा नीलामी सौर पार्क योजना के तहत को निजी वित्त को आकर्षित करने के समर्थन में एक पहल के रूप में उद्धृत किया गया है।
- Similarly, India's issuance of **sovereign green bonds** and the success of **Securities and Exchange Board of India (SEBI)-regulated social bonds** have channelled **private capital** into **climate action, education and health care**.  
इसी तरह, भारत का संघीय ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)-नियंत्रित सोशल बॉन्ड्स की सफलता ने निजी पूंजी को जलवायु कार्रवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निर्देशित किया है।

## Changes to Strategy रणनीति में बदलाव

- To unlock this gap in **finance**, India must diversify and deepen its **climate finance strategy**, starting with **public finance**.  
इस वित्तीय अंतर को खोलने के लिए, भारत को अपनी जलवायु वित्त रणनीति का विविधीकरण और गहराई करनी होगी, शुरूआत सार्वजनिक वित्त से करनी होगी।
- National and State governments** can use **Budget allocations and fiscal tools** to attract **private capital** and de-risk **green investments**.  
राष्ट्रीय और राज्य सरकारें बजट आवंटन और वित्तीय उपकरणों का उपयोग करके निजी पूंजी को आकर्षित कर सकती हैं और ग्रीन निवेश के जोखिम को कम कर सकती हैं।
- Blended finance** can bridge this divide.  
इस अंतर को पाटने के लिए ब्लेंडेड फाइनेंस उपयोगी हो सकता है।
- While **concessional finance and risk-sharing mechanisms** are often referenced, there is a need to examine how they work across **sectors, scales, and investor profiles**.  
जबकि अक्सर सुविधाजनक वित्त और जोखिम-साझाकरण तंत्र का संदर्भ दिया जाता है, यह देखना आवश्यक है कि ये विभिन्न क्षेत्रों, पैमानों और निवेशक प्रोफाइल में कैसे काम करते हैं।
- Credit enhancement instruments** such as **partial guarantees or subordinated debt** can improve the **risk-return profile** of **green projects**, making them more attractive to **private lenders**.  
क्रेडिट एन्हांसमेंट उपकरण, जैसे आंशिक गारंटियां या सबऑर्डिनेटेड ऋण, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के जोखिम-लाभ प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं, जिससे ये निजी ऋणदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाते हैं।
- Similarly, **performance or loan guarantees** can unlock **finance for mid-sized clean energy infrastructure** in **Tier II and III cities**, where **governance and delivery risks** may deter investors.  
इसी तरह, प्रदर्शन या ऋण गारंटियां मध्यम आकार की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के लिए Tier II और III शहरों में वित्त को खोल सकती हैं, जहां शासन और वितरण जोखिम निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- Scaling such models will require unlocking **domestic institutional capital**, from **pension funds, insurers and sovereign wealth funds**.  
ऐसे मॉडलों को बढ़ाने के लिए घरेलू संस्थागत पूंजी को खोलने की आवश्यकता होगी, जैसे पेंशन फंड, बीमाकर्ता और संप्रभु धन कोष।
- India, too, can unlock similar potential by enabling its **institutional investors** such as the **Employees' Provident Fund Organisation** or the **Life Insurance Corporation**, to allocate a portion of their portfolios to **climate-aligned investments**.  
भारत भी इसी तरह की क्षमता खोल सकता है अपने संस्थागत निवेशकों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, को जलवायु-संगत निवेशों के लिए उनके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आवंटित करने की अनुमति देकर।



- This would require **regulatory reforms** such as clearer **environmental, social, and governance investment guidelines**, **risk mitigation instruments** and **long-term green project pipelines**.  
इसके लिए **नियामक सुधारों** की आवश्यकता होगी, जैसे स्पष्ट पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक निवेश दिशानिर्देश, जोखिम न्यूनीकरण उपकरण और दीर्घकालिक ग्रीन प्रोजेक्ट पाइपलाइन।

## Tap Carbon Markets कार्बन बाजार का उपयोग

- **Policy and institutional support** are critical.  
नीति और संस्थागत समर्थन महत्वपूर्ण हैं।
- **Carbon markets** offer another avenue.  
कार्बन बाजार एक और मार्ग प्रदान करते हैं।
- India's new **Carbon Credit Trading Scheme** could unlock new **finance streams** if it is **transparent, well-regulated and equitable**.  
भारत की नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना नए वित्तीय प्रवाह को खोल सकती है यदि यह पारदर्शी, अच्छी तरह से विनियमित और समान रूप से न्यायसंगत हो।
- Equally urgent is **financing for adaptation and loss and damage**.  
समान रूप से महत्वपूर्ण है अनुकूलन और हानि एवं नुकसान के लिए वित्तपोषण।
- India must lead not just on **clean energy** but also on **climate finance innovation**, with **visible, scalable breakthroughs**.  
भारत को केवल स्वच्छ ऊर्जा में ही नहीं, बल्कि जलवायु वित्त नवाचार में भी नेतृत्व करना चाहिए, जिसमें दृश्य और पैमाने योग्य सफलता हो।
- This can be through **blockchain for tracking climate finance**, **Artificial Intelligence-driven risk assessment** for **green portfolios**, or **tailored blended finance models** that reflect India's unique **social, environmental and economic realities**.  
यह किया जा सकता है जलवायु वित्त ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन, ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए AI-चालित जोखिम मूल्यांकन, या विशिष्ट ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स के माध्यम से, जो भारत की अद्वितीय सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाते हैं।